



जम्मू-कश्मीर सरकार ने आतंकी संबंधों के चलते तीन सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया

एजेंसी श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को आतंकी संगठनों के लिए काम करने के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी सुरक्षाबलों और नागरिकों पर आतंकी हमले करने में आतंकवादियों की मदद कर रहे थे।इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जेल में बंद तीन बर्खास्त कर्मचारियों में पुलिस

कांस्टेबल मलिक इश्फाक नसीर, अहमद और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट वसीम अहमद खान शामिल हैं। मलिक इश्फाक नसीर को 2007 में जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था। उसका भाई मलिक आसिफ नसीर लश्कर का पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी था। उसे 2018 में एक मुठभेड़ के दौरान

सुरक्षाबलों ने मार गिराया था। हालांकि, मलिक ने अपनी आतंकी गतिविधियों को बेखोफ जारी रखा और पुलिस कांस्टेबल होने के नाते वह किसी भी संदेह से बचने में सक्षम था। पुलिस के अनुसार मलिक का लश्कर से संबंध सितंबर, 2021 में उजागर हुआ था, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस जम्मू क्षेत्र में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी से संबंधित एक मामले की जांच कर रही थी। पुलिस कांस्टेबल



होने के बावजूद वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थ गिराने में

मदद कर रहा था। इन खेपों को जीपीएस तकनीक से निर्देशित किया जाता था। पुलिस के अनुसार मलिक न केवल सुरक्षित स्थान की पहचान कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के साथ जानकारी साझा कर रहा था। वह जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद भी इकट्ठा करके वितरित कर रहा था, जिससे वह सुरक्षा बलों और नागरिकों पर

आतंकवादी हमले करने में सक्षम हो सके। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक एजाज अहमद हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। उसे 2011 में शिक्षक के तौर पर भर्ती किया गया था। वह पुंछ क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन का भरोसेमंद आतंकी सहयोगी बन गया था। वह हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी में आतंकी संगठन

की सक्रिय रूप से मदद कर रहा था। उसके आतंकी संबंध नवंबर, 2023 में उजागर हुए, जब पुलिस ने नियमित जांच के दौरान एजाज और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि दोनों एजाज की टोयोटा फॉर्च्यूनर में हथियार, गोला-बारूद और एचएम के पोस्टर ले जा रहे थे। आगे की जांच में पता चला कि यह खेप उसके हैंडलर आबिद रमजान शेख के निर्देश पर प्राप्त हुई

थी, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी है। यह खेप कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले करने के लिए पहुंचाई जानी थी। उन्होंने कहा कि जांच में आगे पता चला कि एजाज पिछले कई सालों से हथियारों और गोला-बारूद की बड़ी खेप हस्तिल करके कश्मीर घाटी में आतंकवादियों तक पहुंचा रहा था।

उत्तरी सिक्किम में फंसे 34 लोगों को हेलीकॉप्टर से पाकिम पहुंचाया गया

एजेंसी गंगटोक। उत्तरी सिक्किम में फंसे 34 लोगों का पहला जल्था मंगलवार को पाक्योंग ग्रीनफील्ड अवाई अड्डा पर सुरक्षित पहुंच गया। मंगलवार सुबह 34 लोगों को लेकर दो एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर उत्तरी सिक्किम के छतेन से उड़ान भरकर पाक्योंग हवाई अड्डे पर उतरे। बचाए गए लोगों में घायल सैन्यकर्म भी शामिल हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। अन्य लोगों में घायल सैनिकों के परिवार और क्षेत्र में फंसे पर्यटक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले रविवार को छतेन में एक सैन्य शिविर पर भूस्खलन होने से तीन सैनिकों की मौत हो गई थी तथा चार अन्य घायल हो गए थे। घटनास्थल पर छह लोग अभी भी लापता हैं। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण सड़क संपर्क बाधित हो गया है। उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान शुरू हो गया है। हालांकि, प्रतिकूल मौसम के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है।

अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में श्रीराम दरबार की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मंगलवार से वैदिक विधि विधान से शुरू हो गया है। परिसर की यज्ञशाला में सुबह 6:30 बजे से पूजा-अनुष्ठान चल रहे हैं, जिसमें 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। इसके साथ ही रामरक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना सहित परकोटे में स्थित छह अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित यह समारोह 5 जून को गंगा दशरह के दिन शुभ अवसर पर पूर्ण होगा। मुख्य समारोह 5 जून को होगा, जिसमें राम दरबार (श्रीराम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान) की प्राण प्रतिष्ठा के साथ-साथ छह अन्य मंदिरों में देव प्रतिमाओं की स्थापना होगी। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा 5जून कोअभिजित मुहूर्त में सुबह 11:25 से 11:40 बजे के बीच संपन्न होगा। ट्रस्ट महामंत्री चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 वैदिक आचार्य संपन्न करवा रहे हैं। इसके तहत 4 जून को विभिन्न अधिवास और पालकी यात्रा का आयोजन होगा, जबकि 5 जून को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। समारोह में ट्रस्टी डॉ अनिल मिश्र संपत्तीक मुख्य यजमान हैं। कार्यक्रम में ट्रस्ट के महामंत्री चम्पा राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, युगपुरुष परमानन्द महाराज, रामेश्वर दास श्री वैष्णव आदि उपस्थित हैं। इससे पहले आयोजन की शुरुआत सोमवार को मातृ शक्तियों की जल कलश यात्रा के साथ हुई थी। यह यात्रा सरयू नदी के पूराने आरती स्थल से शुरू होकर श्रीरहट, हनुमानगढ़ी और दशरथ मंदिर होते हुए राम मंदिर के यज्ञ मंडप पर समाप्त हुई थी।

पंजाब पुलिस ने तरनतारन से आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले गगनदीप सिंह को किया गिरफ्तार

तरनतारन । पंजाब पुलिस ने काउंटर-इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई में तरनतारन से गगनदीप सिंह उर्फ गगन को गिरफ्तार किया है। गगनदीप पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के लिए जासूसी करने का आरोप है। वह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा कर रहा था। पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि गगनदीप तरनतारन के मोहल्ला रोडपूर, गली नजर सिंह वाली का निवासी है। वह पिछले पांच साल से पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। चावला के जरिए उसका संपर्क आईएसआई के संचालकों से हुआ। गगनदीप ने सेना की तैनाती और रणनीतिक स्थानों की गोपनीय जानकारी साझा की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया, जिसमें आईएसआई के 20 से अधिक संपर्कों का विवरण और साझा की गई खुफिया जानकारी मौजूद थी। डीजीपी ने बताया कि गगनदीप को आईएसआई से पैसे भी मिले थे। इस जासूसी नेटवर्क के अन्य कनेक्शनों का पता लगाने के लिए वित्तीय और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। तरनतारन के पीएस सिटी पुलिस स्टेशन में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गगनदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क के पूरे दायरे का खुलासा हो सके। डीजीपी गौरव यादव ने कहा, पंजाब पुलिस हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



असम में बाढ़ से 22 जिले प्रभावित

ब्रह्मपुत्र समेत 15 नदियां खतरे के निशान से ऊपर

एजेंसी गुवाहाटी। लगातार बारिश से असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र (निमातीघाट, तेजपुर), सुबनसिरी (बड़ाटीघाट), बुरीदहिंहा, धनसिरी (नुमलीगढ़), कपिली (कामपुर, धरमुटल), बराक (छोटा बेकरा, फुलेटल, एपी घाट, बीपी घाट), रुकनी (धोलाई), धलेस्वरी (घरमुरा), कटाखाल (मातिजुरी) और कुशियारा (श्रीभूमि) नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।बाढ़ से 22 जिले प्रभावित हैं। जिनमें लखीमपुर, नगांव, कछार, डिब्रुगढ़, माजुली, तिनसुकिया, शिवसागर, दरंग, गोलाघाट, कामरूप, मेोरिगांव, होजाई, हैलाकादी, धेमाजी, जोरहट,



शोणितपुर, बिस्वनाथ, कामरूप (एम), कार्बी आंगलॉंग, कार्बी आंगलॉंग वेस्ट, डिमा हसाओ और श्रीभूमि जिले शामिल हैं। अब तक 1254 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 5,15,039 लोग प्रभावित हुए हैं।

12,610.27 हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त हुई है। 65 राजस्व सर्कल प्रभावित हैं। 165 राहत शिविर और 157 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। 31,212 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं जबकि 1,54,177 लोग गैर-शिविर राहत

केंद्रों से सहायता ले रहे हैं। होजाई में एक पुरुष की मौत की पुष्टि हुई है। हैलाकादी और दिब्रुगढ़ से एक-एक पुरुष लापता हैं। कुल 4,67,851 पशु प्रभावित हैं जिसमें 1,56,253 बड़े, 1,06,216 छोटे और 2,05,382 पोल्ट्री। गोलाघाट में 2 बड़े पशु और लखीमपुर में 92 (65 बड़े, 27 छोटे) पशु बह गए। लखीमपुर में 84 कच्चे मकान पूरी तरह और 43 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत व बचाव कार्य में एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, स्थानीय प्रशासन व लोग शामिल हैं। 122 मेडिकल टीम और 50 नावें तैनात की गई हैं। नावों से 711 लोगों और 130 पशुओं को सुरक्षित निकाला गया है।

बिहार के सीवान में आंधी-तूफान से तबाही,सात लोगों की मौत, अनुग्रह राशि की घोषणा

● आंधी-तूफान के बीच हुई तेज बरसात के बीच बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं।

एजेंसी पटना। बिहार में आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश से चौरफा तबाही हुई है। सोमवार देरशाम राज्य के सीवान जिले में इस प्राकृतिक आपदा में सात लोगों की जान चली गई। मृतकों में दो महिलाएं और एक बुजुर्ग शामिल हैं।



क्षेत्र विष्णुपुरा गांव में 40 वर्षीय अलीमुन बेगम पर महुआ का पेड़ गिर गया। वह मौके पर जान गंवा बैठे। लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र बाजितपुर गांव के 35 वर्षीय व्यवसायी यूसुफ अली के कार पर बरगद का पेड़ गिर गया। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। लखनौरा गांव में 52 वर्षीय

देवी आंगन में थीं। तभी आम का पेड़ उन पर गिर गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जीबी नगर थाना क्षेत्र के सतवार गांव में 75 वर्षीय श्रीराम प्रसाद की झोपड़ी ढह गई। वह बाहर नहीं निकल सके और उनके प्राण पखरू उड़ गए।

● ‘लोकसेवा में ‘पद’ नहीं बल्कि ‘कर्तव्य’ और ‘जवाबदेही’ महत्वपूर्ण है’

एजेंसी देहरादून। प्रदेश की धामी सरकार ने हरिद्वार में 54 करोड़ के जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले में मंगलवार को दो आईएसएस, एक पीसीएस अफसर समेत सात अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में तीन अधिकारी पूर्व में निलंबित हो चुके हैं, जबकि दो को पूर्व में सेवा समाप्त की जा चुकी है। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ विजिलेंस को जमीन घोटाले की जांच सौंप दी गई है। हरिद्वार नगर

निगम द्वारा ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2.3070 हेक्टेयर भूमि को करोड़ों रुपये में खरीदने पर सवाल उठने के बाद



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच कर, रिपोर्ट 29 मई को ही शासन को सौंपी थी। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कार्मिक

एवं सतर्कता विभाग ने मंगलवार को सात अधिकारियों को निलंबित करने में तीन अधिकारी पूर्व में निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि दो की पूर्व में सेवा समाप्त की जा चुकी है। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 10 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने जिन सात अधिकारियों को निलंबित किया है कि उनमें हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक और मौजूदा डीएम कमेंड सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास शामिल हैं।

धनखड़ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की तीन दिवसीय यात्रा पर

एजेंसी नई दिल्ली ।उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पांच जून से सात जून तक चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की तीन दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। उप राष्ट्रपति सचिवालय ने मंगलवार को यहां बताया कि यात्रा के दौरान श्री धनखड़ की पत्नी और डॉ. सुदेश धनखड़ भी साथ होंगी। उप राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से भी संवाद करेंगे। डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना एक दिसंबर, 1985 को बागवानी, वानिकी और संबंधित विषयों के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।



उप राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से भी संवाद करेंगे।

तमिलनाडु सीबी-सीआईडी ने करोड़ों रुपये के इरीडियम कॉपर घोटाले का किया पर्दाफाश, छह गिरफ्तार

एजेंसी चेन्नई।तमिलनाडु अपराध शाखा की सीआईडी विंग ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए करोड़ों रुपये के इरीडियम कॉपर घोटाले का पर्दाफाश किया है और इस संबंध में छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आरबीआई अधिकारी बनकर अपराध को अंजाम दिया था। सीबी-सीआईडी की मंगलवार को यहां जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि गिरफ्तार किये गये

लोगों में तमिलनाडु के पांच और तेलंगाना का एक व्यक्ति शामिल है तथा उनके पास से कई अपचितजनक सामग्रियां बरामद की गयी है। यह तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में कुछ समूहों द्वारा अनधिकृत जमाराशि एकत्रित करके जनता को धोखा देने का मामला है, जिसमें दावा किया गया कि इरीडियम तांबे की बिब्री के लिए आरबीआई के माध्यम से केंद्र सरकार से कई हजार करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वे यह कहकर भी ठगी

कर रहे थे कि आरबीआई को सेवा शुल्क देना होगा और उक्त राशि जारी करने के लिए आरबीआई के उच्च अधिकारियों को कमीशन देना होगा। ये घोटालेबाज पीड़ितों को विश्वास दिलाने के लिए नकली आरबीआई बॉन्ड दिखाकर करोड़ों रुपये के रिटर्न का आश्वासन दे रहे थे। यह घोटाला तब सामने आया जब फरवरी 2024 में एक व्यक्ति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की सचेत वेबसाइट पर असंगठित निकायों द्वारा स्वीकार किए

गए अनधिकृत जमा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गयी। इसके बाद, मई 2024 में आरबीआई के सहायक महाप्रबंधक ए.जे. कैनेडी द्वारा चेन्नई पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई और इसे सीबी-सीआईडी को भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच करने के बाद, सलेम ऑफिसी सीबी-सीआईडी इकाई में धारा 419, 465, 468, 471, 420 आईपीसी और 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के साथ पांच प्रतीक और नाम

(अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और मार्च 2025 में जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान, तमिलनाडु के तंजावूर जिले के नित्यानंदम और चंद्रा को गिरफ्तार किया गया और 28 मई को रिमांड पर लिया गया। आगे की जांच में चार और आरोपियों अंबुमणि निवासी धर्मपुरी, मुथुसायि निवासी सलेम, केशवन निवासी सलेम तथा गडी चलां किशोर कुमार निवासी तेलंगाना को

गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि आरोपियों के पास से सोने के रंग की धातु, कुछ जाली दस्तावेज, मोबाइल फोन और अपचितजनक सामग्री जब्त की गई। पूछताछ से पता चला कि आरोपियों ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई लोगों को ठगा है। अब तक चेन्नई, तंजावूर, कोयंबटूर, सेलम, नमक्कल और धर्मपुरी के लगभग 20 पीड़ितों की पहचान की गई है ।

संक्षिप्त समाचार

जामुन के पेड़ से गिरने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया

आदिवासी एक्सप्रेस संवाददाता

साहिबगंज: तालझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जामुन के पेड़ से गिरने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सकरीगली भोजल टोला निवासी राज ब्रिज सिंह का 25 वर्षीय पुत्र छोटू सिंह सुबह 7:00 बजे जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था, तोड़ने के दौरान पैर फिसल कर 20 फिट के ऊंचाई से जमीन पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। जहां परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। जहां इयूटी पर तैनात चिकित्सकों ने उक्त घायल का इलाज किया।

लायन अभित मिश्रा का हुआ नागरिक अभिनंदन



दिव्य दिनकर संवाददाता

रांची- हरमू रोड स्थित होटल काक्स में बिजनेस क्लस्टर ऑफ इंडिया के तत्वावधान में लार्सेस क्लब ऑफ रांची हरिकनक ग्रेटर के लायन अभित मिश्रा को आगामी सत्र 2025-26 के लिए अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंटकर नागरिक अभिनंदन किया गया मौके पर इइक के अध्यक्ष डॉ.सजीत कुमार ने कहा लार्सेस क्लब विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो मानव कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है ल्तायन अभित मिश्रा को आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष चुने जाने पर अब हरिकनक ग्रेटर क्लब को और भी गति मिलेगी बिजनेस क्लस्टर ऑफ इंडिया भी एक सामाजिक सरोकार रखते वाली व्यापारिक संगठन हैं जो व्यवसायियों के लोकल लेवल को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर लायन सुजीत कुमार,लायन शिव कुमार सिंह,डॉक्टर संजीत कुमार, अजय कुमार,धीरज प्रोवर एवं अन्य सदस्य मौजूद थे।यह जानकारी लार्सेस क्लब ऑफ रांची हरिकनक ग्रेटर के पीआरओ शिव किशोर शर्मा ने दी है।

मांडर, सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक घायल, एक रिम्स रेफर

दिव्य दिनकर संवाददाता

मांडर - मांडर टांगरखसली रोड में कंजिया पुल के निकट सोमवार की शाम को सड़क दुर्घटना में रांची के आजाद बस्ती निवासी बाइक सवार साहेब खान 20 वर्ष व फैजान खान 19 वर्ष घायल हो गये. फैजान खान को मांडर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया है. घटना शाम करीब साढ़े सात बजे की है. बताया गया कि दोनों युवक गौरे गांव अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे. इसी क्रम में सामने से आ रहे दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गयी. जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गये!

हाइवा के टक्कर से लालबथानी निवासी तौफीक आलम हुआ घायल

मंडरो: मिर्जाचौकी झारखंड बैरियर समीप मंगलवार सुबह हाइवा के चपेट में आने से मुफ्तसिल थाना क्षेत्र लालबथानी निवासी तौफीक आलम हुआ घायल, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। मिली जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल से तौफीक आलम अपने घर लालबथानी जा रहा था तभी मिर्जाचौकी झारखंड बैरियर समीप एक हाइवा जेपेच 04 एल 1854 के जोरदार टक्कर से सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से मिर्जाचौकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची मिर्जाचौकी पुलिस। मिर्जाचौकी झारखंड बैरियर समीप लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया की हाइवा चालक इन दिनों सही से वाहन नहीं चलाते हैं। जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। वहीं लोगों ने कहा की पुलिस प्रशासन को वाहन चालकों की ड्राइवरी लाइसेंस की जांच करवानी चाहिए। जिससे यह पता चले की वाहन चालक के पास लाइसेंस है या नहीं।

मिजाचीकी थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर खदान में पोकलेन व हाइवा जलाने का बोरियो विधायक ने की निंदा

मंडरो:

मिजाचीकी थाना क्षेत्र में पत्थर खदान में दो पोकलेन व दो हाइवा जलाने का बोरियो विधानसभा विधायक धनंजय सोरेन ने की निंदा । वहीं विधायक ने कहा की बड़ी ही दुःख के साथ भुझ कहना पड़ रहा है। कि बीते दिन मिजाचीकी एवं ललमटिया थाना क्षेत्र में बदमाशों के द्वारा पोलैने हाईवा जलाया गया था ललमटिया में गोली बारी कि गयी थी। सभी हादसा को वरीय पदाधिकारी से मांग करता हूं मामला को संज्ञान में लेकर घटीत घटना का सफल उद्देदन किया जाए। व्यवसाई एवं आम नागरिक चवराएं नहीं हम हमारी सरकार आप सभी के साथ है । ज्ञात हो की बीते दिन रविवार रात को मिजाचीकी थाना क्षेत्र अंतर्गत दामिनपीठा मौजा में स्थित जय माता दी स्टेन वर्क्स पत्थर खदान में अज्ञात अपराधियों ने दो पोकलेन एवं दो हाइवा में आग लगा दी थी। चारों वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गया था। मामले को लेकर मिजाचीकी पुलिस जांच में जुटी हुई है।

आज विद्युत आपूर्ति 8 घंटे के लिए बाधित रहेगा देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

राजकीय श्रावणी मेला, 2025 में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 केवी कॉलेज शक्ति उपकेंद्र में 10 एमवीए पावर ट्रांसफ़ॉर्मर लगाया जाना है। ऐसे में कल दिनांक 04.06.2025 को समय दिन के लगभग सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 तक पीएसएस कॉलेज से निकलने वाले 11 केवी टाउन 1, टाउन 2, शिवगंगा, रामपुर, कांवरिया फीडर की आपूर्ति बाधित रहेगी। साथ ही शिवगंगा के चारों ओर हिन्दी विद्यापीठ, तिवारी चौक, ह-दहदिया पुल, बी एड कॉलेज, बरमसिया, जटही, भुरभुरा मोड़, रामपुर, कांवरिया पथ आदि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति उक्त अवधि के लिए बंद रहेगी।

प्रतिष्ठित पत्रकार रहे परमानंद चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

स्व. परमानंद चौधरी निर्भीक पत्रकार के साथ साथ एक प्रखर समाजसेवी थे: रामेश्वर राम

हुसैनाबाद: कृष्णा यादव

हुसैनाबाद/पलामू: मंगलवार को साहित्यिक संस्था मौसम के तत्वावधान में हुसैनाबाद के गणेशपुरी स्थित ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में हुसैनाबाद के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्व. परमानंद चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया एवं नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई कार्यक्रम की शुरूआत में उपस्थित सभी लोगों ने स्व. परमानंद चौधरी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया श्रद्धांजलि के साथ उन्हें नमन किया। मुख्य अतिथि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सह संस्था मौसम के संरक्षक रामेश्वर राम उर्फ. छठन राम ने स्व. परमानंद चौधरी को याद करते हुए कहा कि वे न केवल एक निर्भीक पत्रकार थे, अपितु सामाजिक गतिविधियों में भी अग्रणी भूमिका निभाते थे।

वे सामाजिक संस्था मानव नवनिर्माण समिति (मानस) के अध्यक्ष थे और समाजसेवा को पत्रकारिता के समानांतर महत्व देते थे। उन्होंने स्मरण करते हुए कहा कि पत्रकार स्व.परमानंद चौधरी जी की स्मृति में हर तीन वर्ष पर पत्रकार परमानंद चौधरी स्मृति सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसका आयोजन आगामी वर्ष में किया जाएगा। संस्था मौसम के अध्यक्ष विनोद सागर ने कहा कि चौधरी जी का पत्रकारिता के साथ साथ संस्था से विशेष जुड़ाव था और उनके जाने से समाज ने एक सच्चा प्रहरी खो दिया है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। संस्था 'मौसम' के सचिव, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के निदेश-



।क सह दैनिक अखबार हबदलता झारखंड के स्थानीय संपादक मनोज कुमार प्रजापति ने भी

चौधरी जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और खबर मंत्र जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में रिपो-टिंग के माध्यम से सदैव आम जनता, विशेषकर वंचित वर्ग की आवाज बुलंद की। वरीय पत्रकार लक्ष्मी सिंह ने स्व.चौधरी को 'कलम का एक प्रखर योद्धा' बताते हुए कहा गया कि उनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। युवा पत्रकार कृष्णा यादव ने कहा कि नए पत्रकारों को पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में उनका सराहनीय योगदान रहा है। कार्यक्रम में युवा पत्रकार विकास कुमार, कृष्णा यादव, आदित्य शर्मा, शैलेश कुमार, विनय कुमार सिंह सहित संस्था मौसम के अनेक सदस्य एवं क्षेत्रीय पत्रकार उपस्थित रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की।

आईपीएस मोहम्मद नौशाद आलम को पलामू रेंज के डीआईजी बनाये गए

माजपा नेता राकेश सिंह ने मोहम्मद नौशाद आलम को डीआईजी बनाए जाने पर बधाई दी

रांची ,।

आईपीएस मोहम्मद नौशाद आलम को झारखण्ड के पलामू रेंज के डीआईजी बनाये जाने पर उन्होंने झारखण्ड सरकार को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस विश्वास के लिए बधाई दिया इस अवसर पर भाजपा नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश सिंह ने भी उनको बधाई और शुभकामनायें दिया और कहा की यह हमलोगो के लिए और परसा के लिए काफी खुशी की बात है इतने बड़े पद पर जाकर भी अपने छेत्र के लोगो के प्रति उनका हमेशा सरल बेहवार रहा है और आज भी लोगो को गांव के जैसा मान समान देते है मिलने पर पता नहीं चलता है की इतने बड़े अधिका-



री होंगे वह बहुत ही मिलनसार बेवक्ति है जिसकी जितनी तारीफ की जाये वह कम है और ज्ञात हो की इससे पहले भी रांची एसपी के रूप मे और

ट्रैफिक एएपी के रूप मे अपना योगदान दे चुके है और इनके कार्य शैली की भी चर्चा हमेशा होती है रांची मे काफी सराहनीय कार्य किये है अब पलामू के लोगो को भी इनके जाने से इनके अनुभव का काफी लाभ मिलेगा इस अवसर पर कई सामाजिक कार्यकर्ता ने भी उनको डीआईजी बनने पर संतोष शर्मा मंडल अध्यक्ष अजय नाथ मंडू बाबा पूरी मोनू सिंह भूलन जी चंदन सिंह विकास सिंह मिथलेश मांझी रामानंद सिंह सहित अनेक लोगो ने शुभकामनायें दिया ज्ञात हो की उनकी शुरूवाती शिक्षा गाँव सच्चौ एक से पांच तक परसा प्राइमरी स्कूल से हुए जिसके 6 से 10 तक परसा हाई स्कूल से हुआ इसके बाद आईएससी दरभंगा से किया और बीएससी पूरा से किया।

साहेबगंज में दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार मेला सम्पन्न, 86 अभ्यर्थी चयनित और 179 शॉर्टलिस्टेड

उपायुक्त हेमंत सती ने किया मेले का उद्घाटन, युवाओं को दिया स्वरोजगार का संदेश

साहिबगंज:

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के तत्वावधान में सिद्धो-कान्हू सभागार, साहेबगंज में एक दिवसीय दत्तोपंत टेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस मेले का आयोजन जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर, साहेबगंज के माध्यम से किया गया, जिसका उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना था। इस अवसर पर उपायुक्त हेमंत सती ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया और अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि ऐसे मेलों से न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर होते हैं। उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षकों को निर्देशित किया कि वे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को



रोजगार से जोड़ें। रोजगार मेले में कुल 10 निजी क्षेत्र के नियोजक उपस्थित हुए, जिनमें से 5 नियोजक साहेबगंज जिले से संबंधित थे। इन नियोजकों ने SMO Trainer, GDA Trainer, MIS, Mobilizer, Soft Skill Trainer, War-den, Centre Head, Coun-selor, DDEO Trainer,

Service Advisor, Production Executive, Cook, Associate, Helper, Line Operator, Quality Check जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई। इतक पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा, ITI निर्धारित की गई थी। रोजगार मेले में कुल 1826 रिक्रियों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 86

अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया, जबकि 179 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, साहेबगंज जिले के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा 61 अभ्यर्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई तथा उन्हें लाभांशित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई। इस आयोजन से अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।

गौरतलब है कि विगत 3 मई 2025 को आयोजित रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया गया, जिससे कार्यक्रम की प्रभाव-शीलता और नियोजन की तत्परता स्पष्ट होती है। जिला प्रशासन का यह प्रयास युवाओं के जीवन में सका-रात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है, जिससे जिले में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।

गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में अवैध बालू लदा तीन ट्रैक्टर जप्त

वन विभाग और चौपारण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

दिव्य दिनकर चौपारण राजेश सहाय

गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुड़िया जंगल में अवैध बालू खनन की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार को तीन बालू लदे ट्रैक्टरों को जप्त किया गया। इस संबंध में वनरक्षी जैनेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएफओ को गुप्त सूचना मिली कि मुड़िया जंगल क्षेत्र से बालू लदे तीन ट्रैक्टर निकलने वाले हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने चौपारण पुलिस की मदद से तत्काल एक विशेष छापामारी दल गठित किया और मुड़िया जंगल क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रैक्टरों को मौके पर ही पकड़ लिया। हालांकि गिरफ्तारी किसी



की नहीं हुई क्योंकि बालू तस्क़र और ट्रैक्टर चालक छापामारी दल को देखते ही फरार हो गया। जप्त किए गए ट्रैक्टरों को चौपारण कार्यालय लाया गया है, जहां वन अधिनियम की धाराओं के तहत वनवाद दर्ज करने की प्रक्रिया प्रा-

रंभ कर दी गई है। इस कार्रवाई में वनरक्षी जैनेंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, अयूब अंसारी, चौपारण थाना पुलिसकर्मी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल थे। गौरतलब है कि गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र एक

संरक्षित वन क्षेत्र है, जिसे 1976 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। यह क्षेत्र न केवल जैव विविधता से समृद्ध है, बल्कि यहां वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से कोई भी खनन, वनोपज संग्रह, या यांत्रिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 29 के तहत, आश्रयणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भूमि के उपयोग में परिवर्तन, खनन कार्य, वृक्षों की कटाई या खनिज पदार्थों का निष्कर्षण बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध माना जाता है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें वाहन जप्ती के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर जेल तक की सजा का प्रावधान है।



केरेडारी संवाददाता रबिन्द्र कुमार पाण्डेय

हजारीबाग जिले के केरेडारी प्र-खंड में रविवार रात उग्रवादियों ने एक बार फिर औद्योगिक गतिविधियों को निशाना बनाया। प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय (TSPC) के सदस्यों ने केडी कोल परियोजना में कार्यरत निजी कंपनी बीजीआर मार्टनिंग के दो स्केनिया ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही, घटना के दौरान की गई गोलीबारी में एक युवक के घायल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार, यह हमला रात करीब 8:30 बजे के आसपास हुआ जब दोनों वाहन कोयला ढुलाई में लगे थे। हमलावरों ने पहले अंधाधुंध फायरिंग की और बाद में पेट्रोल डालकर वाहनों में आग लगा दी। दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पुलिस को घटनास्थल से टीएसपीसी के सब-जोनल कमांडर हकीशाल जी के नाम से एक

हस्तलिखित पत्र भी मिला है। इसमें संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एनटीपीसी, सीसीएल, एलएनटी और अन्य टेका कंपनियों को बिना संगठन से संवाद किए कोई भी कार्य न करने की चेतावनी दी है। पत्र में आगे कहा गया है कि अगर आदेशों की अवहेलना की गई तो भविष्य में और बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, घटना की सूचना मिलते ही पगार ओपी थाना प्रभारी विक्की ठा-कुर के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है, और संदिग्धों की तलाश में सर्व ऑपरेशन शुरू किया गया है। एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है ताकि फायरिंग और आगजनी से जुड़े सबूत जुटाए जा सकें। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में उग्रवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और शामिल दोषियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।

मोहनपुर का डुमरिया बलजोरा सड़क की हाल बेहाल

सड़क के गड्ढे में भरा पानी, हर कदम परेशानी

ग्रामीण पिछले 10 सालों से सड़क मरम्मती की मांग को कर रहे हैं

देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

मोहनपुर:

बारिश के बाद डुमरिया बलजोरा मार्ग की स्थिति बदतर हो गई है। मार्ग में बना गड्ढा दिन - प्रतिदिन जानलेवा साबित हो रहा। बरसात में गड्ढे में भरा पानी से गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सर्वाधिक खराब बलजोरा गांव के पास है। यहां सड़क पहले से गड्ढे में तब्दील है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। विभागीय उ-दासीनता के कारण छोटे-छोटे गड्ढे में विशाल रूप ले लिया है। बार-बार आगाह करने के वजूद भी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की नौद नहीं टूट रही है। सोमवार को राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी हुआ। गड्ढे एक से डेढ़ फीट गहरा हो गया है। जहां बरसात का पानी जमा हो जाने से बाइक सवार लोग लगातार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई बार बाइक के पीछे बैठी महिलाएं अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर चुकी हैं। कई लोगों की मोबाइल भी इस गड्ढे में गिरकर बर्बाद हो चुके हैं। ग्रामीण पिछले दस सालों से सड़क मरम्मती की मांग करते आ रहे हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लोग जान जोखी में डालकर आवाजाही करने की मजबूरी है।



संक्षिप्त समाचार

जनता दरबार पहुंचे लोगों के मामलों पर अपर समाहर्ता ने की सुनवाई



रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़:पाकुड़ मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देश पर अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन ने आयोजित जनता दरबार में आम जनता से जुड़ी समस्याओं पर क्रमवार सुनवाई की। अपर समाहर्ता ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए अविलंब जांच कर जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में जमीन से संबंधित, धान की फसल में अगलगी को लेकर भुगतान, जल पाईप लाईन योजना से संबंधित आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए थे

प्रदेश महासचिव तनवीर आलम के निर्देश पर मोनिता कुमारी बनीं जनसमस्याओं की आवाज



रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़:पाकुड़ मंगलवार को नगर के वार्ड संख्या 3 (कूड़ापाड़ा) और वार्ड संख्या 6 (छोटी अलीगंज) की जटिल जनसमस्याओं को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव तनवीर आलम के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी की जिला महासचिव मोनिता कुमारी ने नगर परिषद कार्यालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार चौधरी से समन्वय स्थापित कर स्थानीय जनता की समस्याओं को गंभीरता से उठाया।क्षेत्र में व्याप्त जल निकासी की समस्या, पेयजल संकट, और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी को लेकर मोनिता कुमारी ने पहले खुद क्षेत्र का दौरा किया और फिर कार्यालक पदाधिकारी को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करवाई। कूड़ापाड़ा में नाले की आवश्यकता तथा छोटी अलीगंज में डिप बोरिंग और जल निकासी की मांगों पर उन्होंने ठोस कार्रवाई की मांग की। कार्यालक पदाधिकारी ने समस्याओं को प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। स्थानीय जनता ने मोनिता कुमारी के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि र्शेमोनिता दीदी ही हैं जो हमारी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाती हैं और समाधान की दिशा में ठोस प्रयास करती हैं। यह पहल कांग्रेस संगठन की जमीनी सक्रियता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।इस मौके पर नगर अध्यक्ष वंश-राज गोप, निवर्तवान वार्ड पार्षद अरुण सरदार,कनीय अभियंता, दुलाल सिंह,नीलू सरदार सहित अन्य लोग मौजूद थे।

बेहरवातिलहा जोरिया के पुल पर मोटर साइकिल चालक की सड़क दुर्घटना में मौत



देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

देवीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलोना हुसैनबाद सड़क में बेहरवातिलहा जोरिया के पुल पर मोटर साइकिल चालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक सिमरा (देवघर प्रखंड) निवासी रंजीत वर्मा उम्र करीब तीस वर्ष वापस अपने घर के तरफ जा रहा था। घटना की सूचना मिलने पर देवीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश का शिनाख्त कर उसके परिजन को जानकारी दिया। इसके बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल देवघर भेज दिया गया। इस सड़क दुर्घटना के कारण मोटर साइकिल चालक की मौत हो जाने से मुतक के परिजनों का रो शोरक बुरा है। वहीं जेएमएम के तेजनारायण वर्मा, जुलेश मरांडी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मृतक के परिजनों को घटनास्थल पर पहुंचने तक मौजूद रहे।

कोरियासा में आयोजित नौ दिवसीय यज्ञ के सातवें दिन संगीत मय रामकथा का आयोजन



देवघर से दिव्य दिनकर संवाददाता प्रेम रंजन झा

कपिध्वज समाज कोरियासा बजरंगबली मंदिर के प्रांगण में रामचरितमानस नवाह पारायण महायज्ञ नौ दिवसीय यज्ञ जो दिनांक 28 मई से आज सातवें दिन के दौरान प्रत्येक दिन सुबह पाठ एवं संस्था 4 बजे से हवन कार्यक्रम वैदिक प्रतिष्ठित पंडित अवधेश शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है।जो देवघर शहर के अगल बगल के हजारों की संख्या में भक्तों की परिक्रमा एवं करते नजर आ रहा है। एवं वनारस से आए कथा वाचक महेन्द्र शास्त्री के द्वारा संगीतमय राम कथा सुनने के हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ देखने उमड़ी। एवं कैमेटी के द्वारा प्रत्येक दिन प्रसादी की व्यवस्था भी किया गया है। इस यज्ञ में समिति के अध्यक्ष शैलेश दुबे, सचिव धर्मेन्द्र रमानी, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास दुबे, कार्तिक दास, उप सचिव बद्री वर्मा, उपाध्यक्ष उमेश यादव, यजमान पंकज दुबे, विक्रम दुबे,सोनु बाबा,अजय साह,मिडिया प्रभारी मुरारी मंडल, भैरव दास, स-कुंदेव रमानी, ललन सिंह,उदय रमानी, अमरेश दास, उमेश मंडल, रंजन

अतिरिक्त यात्री भीड़ के सुविधार्थ पू.सी. रेलवे द्वारा समर स्पेशल ट्रेनें

मालीगांव,:

यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पू. सी. रेलवे) ने तीन जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। इसमें दो जोड़ी मौजूदा स्पेशल ट्रेनों की अवधि में विस्तार और एक नई जोड़ी की शरूआत शामिल है।

ट्रेनों की अवधि में विस्तार:

ट्रेन संख्या 09623/09624 (उदयपुर सिटी-फारबिसगंज-उदयपुर सिटी) समर स्पेशल अब अपने मौजूदा निर्धारित अवधि से आगे भी चलेगी। इस जोड़ी की विस्तारण अवधि को 3 और 5 जून से बढ़ाकर क्रमशः 24 और 26 जून, 2025 तक कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 09623 प्रत्येक मंगलवार को उदयपुर सिटी से रवाना होकर फारबिसगंज पहुंचेगी, जबकि ट्रेन संख्या 09624 प्रत्येक गुरुवार को फारबिसगंज से रवाना होकर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। ये सेवाएं



04 अतिरिक्त फेरों के लिए चलेंगी और इसकी समय-सारणी और ठहराव पूर्व अधिसूचित अनुसार ही रहेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09189/09190 (मुंबई सेंट्रल-कटिहार-मुंबई सेंट्रल) की अवधि में भी विस्तार किया जाएगा। इस जोड़ी ट्रेन की सेवाएं अब 7 और 10 जून से

बढ़ाकर क्रमशः 27 और 30 सितंबर, 2025 तक कर दिया गया है। ट्रेन संख्या 09189 प्रति शनिवार को मुंबई सेंट्रल से खुलकर कटिहार पहुंचेगी, जबकि ट्रेन संख्या 09190 प्रति मंगलवार को कटिहार से खुलेगी और मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। शेड्यूल में बिना किसी बदलाव के प्रत्येक दिशा में कुल

आम उत्सव सह बागवानी मेला का हुआ आयोजन

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़:हिरणपुर प्रखंड परिसर में मंगलवार को मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत एक दिवसीय आम उत्सव सह बागवानी मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी टुडू दिलीप, अंचलाधिकारी मनोज कुमार, पंचायत के मुखिया, किसान एवं बीपीओ टिंकल चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर मेला का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण को आम बागवानी के लिए प्रेरित किया गया। ताकि वे अधिक से अधिक आम बागवानी कर अपनी जीविका का साधन अपना सकें। मेला में विगत वर्षों के बागवानी के किसानों ने अपनी बागवानी के उपज का स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी लगाई। जहां पर लोगों ने आम खरीदा। वहीं महिला किसानों ने अपने आम बागवानी से जुड़े अनुभवों को भी बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दिलीप ने ग्रामीणों को



आम की बागवानी के लिए प्रेरित किया जिससे वे अधिक से अधिक आम बागवानी लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इस योजना का लाभ लेकर स्वावलंबी बन सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष ने कहा कि आम बागवानी का लाभ उठाकर कई ग्रामीण स्वावलंबी बन रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना का लाभ जरूर उठावें। उनके उत्पादनों के

लिए बाजार की व्यवस्था भी की जाएगी। जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक भगत, प्रखंड विकास पदाधिकारी टुडू दिलिप एवं अचल अधिकारी मनोज कुमार ने किसान कोरोलिना किस्कु, सोनामुनी हेन्म्रम, निरंजन भंडारी एवं मिटून साह को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रभारी बीपीएम, जेएसएलपीएस शंकर तिवारी, प्रधान सहायक, कर्मीणग एवं अन्य उपस्थित थे।

अखिल भारतीय तेली महासभा की मगध प्रमंडलीय बैठक सम्पन्न

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- अखिल भारतीय तेली महासभा की प्रमंडलीय बैठक शेरघाटी प्रखंड के महमदपुर गांव में आयोजित किया गया।अखिल भारतीय तेली महासभा के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के अध्यक्षता में आयोजित बैठक का संचालन युवा अध्यक्ष संदीप कुमार द्वारा किया गया।मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ राम बहादुर प्रसाद गुप्ता की गरिमामई उपस्थिति रही। आगत अतिथियों को आयोजक द्वारा अंग वस्त्र एवं पुष्प हार देकर सम्मानित किया गया।संबोधन के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में तेली साहू समाज द्वारा राजनीतिक भागीदारी के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए कृत संकल्पित है।।ऐसी स्थिति में आज जिस प्रकार से तेली साहू समाज सहित वैश्य समाज के लोगों पर कुठाराघात किया जा रहा है



उससे निजात पाने के लिए वैश्य सु-रक्षा आयोग का गठन जरूर किया जाना चाहिए जिससे वैश्य समाज के सभी लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। जिससे वे अमन चैन के साथ

अपने व्यापार को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें।बहु चर्चित चिर प्रतीक्षित मांग तेल घाणी बोर्ड जिस प्रकार से भाजपा शासित राज्यों में क्रियान्वित होकर पूर्व

रूप हो रही है।बिहार सरकार में भी तेल घाणी बोर्ड का गठन कर तेली समाज के लोगों को कल्याण किया जाना चाहिए।हालिया समय में विधान सभा चुनाव होने वाली है ऐसी स्थिति में जितनी तेली समाज की भागीदारी है उस हिसाब से संबंधित दल के लोग टिकट का बंटवारा करें जिससे साहू समाज के लोग विधानसभा पहुंचकर अपने देश सहित सामाजिक हित बात कर सकें।। विशिष्ट अतिथि शिवहर जिला अध्यक्ष डॉ रामधार साहू, वैशाली जिला अध्यक्ष ललन साहू,प्रदेश युवा महामंत्री पिंटू साहू, डॉ प्रदीप गुप्ता सतेीष गुप्ता,राजेश कुमार प्रमोद साहू,राजकुमार साहू, रौशन स-ाहू प्रदेश मीडिया प्रभारी सुरेश विद्यार्थी ने भी साहू समाज के वर्तमान दशा एवं दिशा पर चर्चा किया।।मौके पर अजय साहू विजय साहू परमेश्वर साहू,सुरज साहू सुबेदार मेजर डीके गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे।

बिहार के मुख्यमंत्री के घोषणा को अवहेलना कर रही है धार्मिक न्यास पर्षद

पातालगंगा में मेडिकल कॉलेज के लिए होगा उग्र आंदोलन

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- सुवं नगरी देव के पातालगंगा में मेडिकल कॉलेज के लिए हो रहें अड़चन को दूर करने के लिए देववासी कियें बैठक ' पूर्व शिक्ष-ाक अजय गुरूजी के अध्यक्षता में हुई बैठक ' बैठक में समाजसेवीयों ने कहा की जब जिला प्रशासन से मे-डिकल कॉलेज के सम्बन्ध में मिलना चाहते हैं तो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है ' इसलिए सभी का विचार हुआ की धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर पुरे अड़चन को जाना जाए उसके बाद निराकरण के लिए सचिवालय को अवगत कराया जाए ' और यदि किसी तरह की बात नहीं बनी तो उग्र



आंदोलन कर जिला को स्तब्ध करा दिया जायेगा ' मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा होने के बावजूद भी देव में मे-

डिकल कॉलेज में जबरदस्ती अड़चन पैदा करना राजनैतिक षड़यंत्र का बू आ रहा है ' पातालगंगा मठ का जमीन

पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़: सूबे की राजधानी रांची में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से रहे पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने सोरेन को एक बार पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष चुने जाने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। अख्तर ने कहा कि सोरेन का फिर से पार्टी अध्यक्ष चुना जाना झारखंड की जनता की उम्मीदों का प्रतीक है और इससे राज्य में सामाजिक न्याय, आदिवासी अधिका-रों तथा विकासोन्मुख राजनीति को और मजबूती मिलेगी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच पाकुड़ जिले के समग्र विकास, स्थानीय जनसमस्याओं एवं लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत वार्ता हुई। श्री अख्तर ने मुख्यमंत्री का ध्यान विशेष रूप से पाकुड़ में स्वास्थ्य से-वाओं की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, सिंचाई परियोजनाओं की धीमी प्रगति तथा युवाओं के लिए रोजगार सृजन से संबंधित मुद्दों की ओर आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और आश्चस्त किया कि राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं



पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का उद्देश्य हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है और इसके लिए संबंधित विभागों को शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए जाएंगे। श्री अख्तर ने मुख्यमंत्री को आश्चस्त किया कि वे पाकुड़ के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार जनमुद्दों को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे और क्षेत्र के विकास हेतु सकारात्मक सहयोग करते रहेंगे। यह भेंट न केवल शिष्टाचारिक रही बल्कि इसमें नीति-निर्धारण एवं विकास के कई अहम पहलुओं पर गहन संवाद हुआ, जो आने वाले समय में पाकुड़ के विकास को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

तनवीर आलम पहुँचे पाकुड़ जिला कार्यालय जन समस्याओं को लेकर की अहम बैठक

रिपोर्ट- अविनाश मंडल

पाकुड़:पाकुड़ सोमवार को पाकुड़ जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश महासचिव तनवीर आलम पहुँचे जहाँ उन्होंने जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की अहम बैठक की। एवं विभिन्न पंचायत से आए आम जनों की समस्याओं से भी रूबरू हुए, ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र से आए पुरुष एवं महिलाओं ने जमीन संबंधी, मईया सम्मान योजना संबंधी, पेंशन संबंधित, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि न मिलने जैसी समस्या एवं ग्रीन कार्ड न बनने की शिकायत, जॉर्जिआ निवास से संबंधित जैसी समस्याओं से झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव को अवगत कराया गया. तनवीर आलम ने संबंधित अधिकारी से वातालीप कर कुछ समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट



किया एवं उक्त समस्याओं को त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। मौके पर , जिला अध्यक्ष श्रीकुमार सरकार, विधायक प्रतिनिधि गुलाम मोहम्मद ,प्रखंड अध्यक्ष मानसखल हक, प्रदेश सचिव ,सेमिनलु इस्लाम , अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शाहीन परवेज, जिला कोषाध्यक्ष असद हुसैन , देवू विश्वास

, युवा महासचिव तस्नीम आरिफ उर्फ बुलेट, युवा जिला अध्यक्ष बिलाल शेख, ओबीसी जिला अध्यक्ष आमिर हमजा,मिरजाहां विश्वास ,रामविलास महतो, डॉ जोहरूलु इस्लाम,नजरूल हक, मुखिया आबूताहिर शेख ,मोजीबुर रहमान ,नसीम आलम, अंसारुल हक सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 हेतु ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) का निरीक्षण

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के महेनजर भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार औरंगाबाद जिले में ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जाँच (एफएलसी) का कार्य दिनांक 02 जून 2025 से प्रारंभ हो गया है, जो 18 जून 2025 तक लगातार चलेगा। इस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया। एफएलसी कार्य के पर्यवेक्षण हेतु अपर समाहर्ता (आपदा), श्री उपेन्द्र पंडित को पर्यवेक्षण पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है , वहीं श्री सच्चिदानंद सुमन, नोडल पदाधिकारी (ईवीएम कोषांग) को प्रथम



स्तरीय जाँच के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) द्वारा नियुक्त अभियंताओं की 13 सदस्यीय टीम द्वारा किया जा रहा है। एफएलसी की प्रक्रिया प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक लगातार चल रही है , जिसमें अवकाश के दिन भी शामिल हैं। जिले में कुल 3806 बैलट यूनिट, 3088 कंट्रोल यूनिट तथा 3295 वीवीपैट मशीनों की जाँच की जा रही है। एफएलसी कार्यक्रम की जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिला अध्यक्ष/सचिव के साथ-साथ राज्यस्तरीय पदाधिकारियों को भी दी गई है तथा उनसे या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से इस प्रक्रिया में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। प्रथम स्तरीय जाँच के दौरान प्रत्येक बैलट यूनिट के सभी 16 बटनों पर 6-6 मत डालकर कुल 96 मतों से मशीन की कार्यक्षमता की जाँच की जाती है। एफएलसी प्रक्रिया के पश्चात योग्य घोषित मशीनों की सूची सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती है। निर्वाचन से पूर्व माँक पोल के अंतर्गत कुल 5 प्रतिशत ईवीएम मशीनों का परीक्षण किया जाता है, जिसमें 1 प्रतिशत मशीनों में 1200, 2 प्रतिशत में 1000 तथा अन्य 2 प्रतिशत में 500 मत डाले जाते हैं। केवल एफएलसी में उत्तीर्ण मशीनों का ही निर्वाचन कार्य में उपयोग किया जाएगा। जो मशीनें एफएलसी में अयोग्य पाई जाती हैं, उन्हें ईसीआईएल को सात दिनों के भीतर वापस भेजा जाता है। जाँच स्थल पर अग्निशमन वाहन, फायर अलार्म, एम्बुलेंस एवं मेडिकल टीम को व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे सुरक्षा एवं चिकित्सा संबंधी सभी आवश्यक पहलुओं का ध्यान रखा जा सके। ३ उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा एफएलसी कार्य से संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को 'मैनुअल ऑन ईवीएम 2023' के अध्याय 2 में उल्लिखित निर्देशों के आलोक में कार्य निष्पादन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

निशाने पर सिर्फ मूर्ति भर नहीं है!

>> विचार

“**।।बाबा साहब की मूर्ति कोई ऐसे ही नहीं पधराई जा रही थी। किसी दूसरे का ताला तोड़कर, रात के अँधेरे में किसी दूसरे धर्म के पूजाघर में घुसकर जबरिया नहीं बिठाई जा रही थी। बाकायदा सारे नियम-विधानों और उच्चतम आदेशों के समुचित क्रियान्वयन के साथ लगाई जा रही थी। 19 फरवरी 2025 को मप्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ग्वालियर के ज्यादातर वकीलों के हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आग्रह किया गया। 26 मार्च को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने आदेश दिया कि अधिकांश वकीलों की राय को देखते हुए मूर्ति की स्थापना की जाए। इस बीच नगर निगम बनाएगी या सरकार, पैसा कहीं से आयेगा वगैरा की संभावित वितंडा और आशंका से बचने के लिए स्वयं वकीलों ने कोई दस लाख रुपये इकट्ठा करके मूर्ति का निर्माण करवा लिया।**

बादल सरोज
मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉ. बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के सवाल पर हो रहे विरोध को सिर्फ स्वयं को वकील बताने वाले चंद कुंदबुद्धि, जातिवादी, लम्पट और स्तरहीन व्यक्तियों की खुराफात समझना गलत समझदारी होगी। निशाने पर सिर्फ मूर्ति भर नहीं है, निशाने पर सिर्फ बाबा साहब भी नहीं हैं, असली निशाना भारत को कुछ हद तक रहने योग्य तथा भविष्य में बेह तरी की ओर जाने की संभावना वाला बनाने वाला वह हासिल है, जिसे सैकड़ों वर्ष तक चले सामाजिक सुधार के संघर्षों और कोई नब्बे साल चले महान स्वतंत्रता संग्राम ने पाया है। इनके निशाने पर वह रेशनी है, जो मनु की अंधेरी गुफा में सदियों तक जकड़े रहे भारत के समाज ने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। इनके निशाने पर भारत का वह संविधान है, जिसने कोई पांच-सात हजार साल की सभ्यता के इतिहास में पहली बार सबकी समानता, समता की बात लिखी गयी। सबकी बराबरी के अधिकार वाले लोकतंत्र को स्थापित किया। अपनी बात कहने, असहमति और विरोध जताने, संगठित होने तथा अपनी मर्जी और पसंद का धर्म मानने अथवा कोई भी धर्म न मानने के बुनियादी अधिकार दिए भी, दिलाये भी। बाबा साहब अम्बेडकर इसको बनाने वाली संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए उन्हें इस देश की जनता ने संविधान निर्माता माना। इस प्रकार उनकी मूर्ति लगाए जाने का विरोध सिर्फ उनकी मूर्ति लगाए जाने का विरोध भर नहीं है; वे जिसके प्रतीक मान लिए गए हैं, उस सबका निषेध है। जो इस मसले को दलित बनाम सर्वग्न बताने की डेढ़ सियानपट्टी दिखा रहे हैं, वे दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि अपनी बुरी नीयत और पापी इरादे को जाति की भेड़ की खाल में छुपा सकें। पृथ्वी के इस प्रभाग के 'आदि वैद्य' कहे जाने वाले चरक की उक्ति में कहा जाए, तो जो इस तरह की 'चतुराई' कर रहे हैं, वे निस्संदेह बड़े वाले धूर्त हैं और जो इनके झांसे में आ रहे हैं, वे उनसे भी ज्यादा बड़े वाले मूर्ख हैं। अफ़सोस की बात है कि धूर्तता और मूर्खता



का यह मधुमिलन उस हाईकोर्ट के परिसर में हो रहा है, जिसे जनता न्यायविव्त्ता और विवेक का परिसर मानती है। उन वकीलों के बीच, उनके नाम पर हो रहा है, जिन्हें विद्वान् और समझदार तथा समाज की चेतना को आगे बढ़ाने वाला, उसे संस्कारित करने वाला माना जाता है। बाबा साहब की मूर्ति कोई ऐसे ही नहीं पधराई जा रही थी। किसी दूसरे का ताला तोड़कर, रात के अँधेरे में किसी दूसरे धर्म के पूजाघर में घुसकर जबरिया नहीं बिठाई जा रही थी। बाकायदा सारे नियम-विधानों और उच्चतम आदेशों के समुचित क्रियान्वयन के साथ लगाई जा रही थी। यह प्रक्रिया इन राहों से गुजर कर पूरी हुई : 19 फरवरी 2025 को मप्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ग्वालियर के ज्यादातर वकीलों के हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आग्रह किया गया। 26 मार्च को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने आदेश दिया कि अधिकांश वकीलों की राय को देखते हुए

मूर्ति की स्थापना की जाए। इस बीच नगर निगम बनाएगी या सरकार, पैसा कहीं से आयेगा वगैरा की संभावित वितंडा और आशंका से बचने के लिए स्वयं वकीलों ने कोई दस लाख रुपये इकट्ठा करके मूर्ति का निर्माण करवा लिया। 21 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने पी डब्ल्यू वी विभाग को आदेश दिया कि वह मूर्ति लगाने के लिए चबूतरे का निर्माण करे। चबूतरा बन गया। 10 मई को कुछ कथित वकीलों ने गिरोह चबूतरे पर जाकर तिरंगा फहरा दिया। यह राष्ट्रध्वज का दुरुपयोग ही नहीं, उसका अपमान और एक ऐसा अपराध भी था, जिसके लिए दण्ड तक के प्रावधान हैं। मगर इन दिनों देश का यह दुर्भाग्य बन गया है कि जिन्होंने आजादी की पूरी लड़ाई में तिरंगे को कभी हाथ में नहीं लिया, आजादी के बाद जब इसे राष्ट्रध्वज का दर्जा मिला, तो इसका विरोध किया, इसे अपशस्वी तक बताया, इसे कभी अपने देश का झंडा न मानने की घोषणाएँ की, इन दिनों

वे ही इस झंडे का इस्तेमाल अपने कुकर्मों, असफलताओं और कुत्सित इरादों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। ठीक वही अंदा यहाँ दिखाई गया। 14 मई से झूज जिस गिरोह से ये ताल्लुक रखते हैं, उसकी आई टी सैल के अंदाज में - सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी गयी और पोस्टरबाजी शुरू हो गयी। इसी गर्मीगर्मी में 17 मई को कथित भीम आर्मी का कोई बन्दा मूर्ति लगाने का ज्ञापन देने गया, तो उस पर हमला बोल दिया गया। हमलावर कौन थे, यह खुद उन्होंने ने वायरल हुए वीडियो में बताया है। खुद को सनातनी और हिन्दुत्ववादी बताते हुए उन्होंने दलितों को छुट्टागालियाँ दीं। उन्हें आरक्षण देकर कहीं से कहीं तक पहुंचाने के ताने और उल्लाहने दिए। उस समय जो मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन जस्टिस सुरेश कुमार कैथ झू जो दलित भी हैं झू को उनकी जाति की याद दिलाते हुए घोर अपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गयीं। खुले आम मारने, तोड़ने की धमकियाँ और डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने पर उसे

तोड़कर गिराने की गीदड़ भभकियां तक दी गयीं। यह सब होता रहा और सरकार और उसका प्रशासन हाथ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। मीडिया इसे वकीलों के दो समूहों के बीच का विवाद बताता रहा और इस तरह अपराध को वाद-विवाद की चादर ओढ़ाता रहा। कुल मिलाकर सार यह है कि बाबा साहब की मूर्ति के बहाने जो लपक रहे हैं, उनके वेश या बाने पर जाने की बजाय इरादे पर जाना होगा। मिथिहासों में रवण साधु का वेश धर कर आया था। मारीच सोने का हिरण बनकर आया था। शकुनि मामा बनकर आया था। मिथकों और महा आख्यानों में ऐसे उदाहरणों की भरमार है कि भेड़िये कोई भी रूप धारकर आ सकते हैं। इन दिनों भेड़िये संविधान को चींथने और भभीड़ने के लिए झपट रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग झुण्ड छोड़ दिए गए हैं इस बार भेड़िये तिलक लगाकर सनातन का बाना ओढ़कर आये हैं। सामान्य विवेक और विधि सम्मत राज की पहली शर्त है कि इन पर मुकद्दमे दर्ज किये जाने चाहिए, इस तरह का झेप और गलत फैलाने वालों को यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए। मगर क्या यह काम वो सरकार करेगी, जिसने सारे प्रोटोकॉल ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई को उनकी मुम्बई यात्रा में ओला जैसी प्राइवेट टेक्सी में बिठा दिया ? उन्हें रिसीव करने तक कोई नहीं पहुंचा था!! क्या इसलिए कि वे भारत के उंगलियों पर गिने जाने वाले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं, जो दलित समुदाय से इस पद तक पहुंचे हैं। अब जिन्होंने देश के सीजेआई के साथ इस बर्ताव की जिम्मेदारी तय नहीं की, वे ग्वालियर हाईकोर्ट के मूर्ति मामले में कुछ करेंगे नहीं। संविधान बचाना है, तो भेड़ियों को ललकारना होगा -- इसी के साथ उन्हें भी पहचानना होगा, जो इस तरह के भेड़ियों को पालते हैं, क्योंकि उस समाज इतिहास से सबक नहीं लेता, उसे मारीचों, शकुनियों और मनुओं की वापसी का अभिशाप झेलना पड़ता है। लिहाजा वक्त का तकाजा है कि जो भी संविधान और उसके बाबा साहब जैसे प्रतीकों का महत्त्व समझते हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए।

(लेखक 'लोकजतन' के संपादक है)

संपादकीय

दावों को नजरअंदाज करना ही बेहतर

बेशक सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक साक्षात्कार में स्वीकार किया है कि हालिया संघर्ष में शुरुआत के दो दिनों में हमें हवाई नुकसान उठाना पड़ा। नंबर अहम नहीं हैं, लेकिन हमने गलतियां सुधारी और अपने टारगेट पर हमला बोल कर उसे तबाह कर दिया। डीजीएमओ (एयर ऑपरेशन) एयर मार्शल एके भारती ने भी लगभग यही बात कही थी कि जंग में नुकसान अपरिहार्य है, लेकिन सीडीएस ने पाकिस्तान के दुष्प्रचार, 5 राफेल विमान गिराने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस सीडीएस के बयान का एक छोर पकड़ कर सवाल करते हुए संदेह जताने पर क्यों तुली है? उसकी संसद के विशेष सत्र बुलाने में क्या दिलचस्पी है? हम पहले भी कह चुके हैं कि यदि सामूहिक विपक्ष संसद सत्र की मांग कर रहा है, तो सरकार को मौनसूज सत्र कुछ पहले ही बुला लेना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी सीडीएस के बयान पर संसद में स्पष्टीकरण दें। कांग्रेस को पता होगा कि अमी 'ऑपरेशन सिंदूर' स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। युद्ध की रणनीति अति गोपनीय विषय है, उसे संसद के मंच पर भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सीडीएस ने रणनीति की ओर संकोच किया है। क्या प्रधानमंत्री के स्पष्टीकरण के जरिए कांग्रेस उस रणनीति का खुलासा करवा देना चाहती है, जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती है। पाकिस्तान हमारी सैन्य रणनीति जानने के बाद अपनी रणनीति दोबारा बना सकता है। हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस का अस्तित्व भारत के अस्तित्व से भिन्न है? उसने कारगिल युद्ध के बाद विशेषज्ञ समिति की तर्ज पर नई समीक्षा-समिति बनाने की भी मांग की है। इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर बातचीत कर सकते हैं। सार्वजनिक मंच पर शोर मचाने और प्रधानमंत्री पर देश को गुमराह करने जैसे आरोप लगाने से हासिल क्या होगा? दुश्मन ही खिल्ली उड़ाएगा। यह युद्ध-सा माहौल है, लिहाजा कांग्रेस को ऐसा गैर-जरूरी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। देश और सेना उसकी भी है। संकटकाल में देश के राजनीतिक नेतृत्व ने जो निर्णय लिए हैं, फिलहाल उनका समर्थन करना चाहिए। राजनीति के लिए लंबा वक्त शेष है। अमी संसदीय चुनाव भी नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के बार-बार मध्यस्थता के दावे पर भी सवाल पूछना देशहित में नहीं है। भारत अमरीका से भी दुश्मनी मोल लेने का जोखिम नहीं उठा सकता, लिहाजा उन दावों को नजरअंदाज करना ही बेहतर है।

समी अहमद

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खुद को स्थापित करने में जबरदस्त हंग से जुटे हैं। उनकी वजह से जेडीयू और नीतीश की स्थिति कमजोर होती जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने बयानों से एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए सिरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। जैसे-जैसे बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है चिराग पासवान अपने बयानों का डोज बढ़ाते जा रहे हैं। खुद को युवा बिहारी कहने वाले और बिहार फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान ने कुछ समय पहले यह बात कही थी कि उनकी दल दिल्ली में नहीं लगता और बिहार उन्हें बुला रहा है लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि इस चुनाव के बाद इस बारे में वह फैसला करेंगे। अब उनकी पार्टी की ओर से ताजा बयान में यह संकेत दिया गया है कि चिराग पासवान न केवल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर की सुरेश्वर सिट से लोकसभा के सदस्य बने चिराग पासवान की पार्टी इस समय वह सभी स्थलकंडे अपना रही है जो चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स में अपनाए जाते हैं। उनकी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर अपने पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ने से सलाह दी है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी पार्टी के फैसले पर सहमत जताने की औपचारिकता पूरी करते हुए कहा कि अगर चुनाव लड़ने से पार्टी और गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। इन बयानों से 2020 के विधानसभा चुनाव की याद ताजा हो जाती है जब उन्होंने एनडीए में रहते हुए एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई और हर उस सीट



पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया जहां से जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार खड़ा हुआ था। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी केवल 43 सीटों पर सिमट गई थी और यह माना जाता था कि लगभग तीन दर्जन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों की हार की बड़ी वजह चिराग पासवान के उम्मीदवारों को मिले हुए वोट थे। यानी चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ 'वोटकटवा' का काम किया। उस समय नीतीश कुमार से चिराग पासवान बिल्कुल खुश नजर नहीं आते थे और उनकी खुलकर आलोचना भी करते थे। इस समय से चिराग पासवान ने खुद को 'मोदी का हनुमान' बताना शुरू किया था और कई लोगों की राय यह थी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं ताकि नीतीश कुमार की पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन कमजोर हो जाए। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार की हालत इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें मजबूरी में यह कहना पड़ा कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। यह अलग बात है कि इसके बावजूद वह मुख्यमंत्री बने। 2024 के

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को पूरी तरह साथ कर लिया और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए में अलग-अलग कर दिया। इसकी वजह से पारस तो एनडीए से बाहर हो गए लेकिन चिराग पासवान का कद काफी बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी को लोकसभा के पांच सीटें दीं और उन सभी सीटों पर चिराग के उम्मीदवार जीत गए। इसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ अपने संबंध बेहतर करने शुरू किए। नीतीश कुमार ने जब अगस्त 2022 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई तो चिराग पासवान का कद एनडीए में और बढ़ गया। यह और बात है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही पहले दोबारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। इस दौरान नीतीश कुमार को स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गईं और उनके अजीबोगरीब हरकत से भी उनकी काफी बदनामी हुई। राजनीतिक तौर पर एक और बदलाव यह आया कि प्रशांत किशोर अब एक तीसरी

शक्ति के रूप में बिहार में उभरने की कोशिश में लगे हैं। इन सब के बीच इस बात पर भी शक पैदा हुआ कि क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग कुमार को 2025 के चुनाव में एनडीए का चेहरा बनाना पसंद करेगी या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता परस्पर विरोधी बयान देते रहे लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि भाजपा औपचारिक रूप से उन्हें ही एनडीए का चेहरा मानती है और उन्हें ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षक यह याद दिलाते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही स्टैंड लेते हुए दिखाया कि कोशिश की थी लेकिन शायद अंदर ही अंदर वह चिराग पासवान को भी इस बात के लिए उकसा रही थी कि वह अपने उम्मीदवार जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े करें। पांच साल बाद कई लोगों को लगता है कि वही सीन दोहराया जा रहा है। इस सारी बयानबाजी के पीछे सीटों के बंटवारे की रणनीति भी लोगों को समझ में आ रही है। नीतीश कुमार की कमजोर स्थिति के बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट चाहती है। उधर भारतीय जनता पार्टी चिराग

पासवान, जीतन राम मांझी और उषेंद्र कुशवाहा के नाम पर नीतीश कुमार को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश में लगी है कि वह इस बार काम सीट पर चुनाव लड़ें। पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी केवल एक सीट पर जीत हासिल कर सकी थी और उस विजयी उम्मीदवार ने भी बाद में उनकी पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन इस बार उनके तरकश में यह तीर है कि उन्होंने पांच जनता पार्टी के नेता परस्पर विरोधी बयान देते रहे लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि भाजपा औपचारिक रूप से उन्हें ही एनडीए का चेहरा मानती है और उन्हें ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षक यह याद दिलाते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही स्टैंड लेते हुए दिखाया कि कोशिश की थी लेकिन शायद अंदर ही अंदर वह चिराग पासवान को भी इस बात के लिए उकसा रही थी कि वह अपने उम्मीदवार जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े करें। पांच साल बाद कई लोगों को लगता है कि वही सीन दोहराया जा रहा है। इस सारी बयानबाजी के पीछे सीटों के बंटवारे की रणनीति भी लोगों को समझ में आ रही है। नीतीश कुमार की कमजोर स्थिति के बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि उनकी पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट चाहती है। उधर भारतीय जनता पार्टी चिराग

में समय बिताना - ये सब वैवाहिक रिश्ते को जीवंत बनाए रखते हैं। यदि साथी तनाव में है, अवसाद या चिंता का शिकार है, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को दिखाया जाना चाहिए। इसे कमजोरी नहीं, समझदारी मानें। इसके बावजूद यदि कोई विवाहेतर संबंधों में उलझ जाता है और इससे कारण वह मानसिक परेशानी से गुजर रहा हो, तो इससे बाहर निकलने के प्रयास किए जाने चाहिए। अपने किए की जिम्मेदारी लें और खुद से ईमानदारी बरतें। भागने से समस्या नहीं सुलझती। कपल काउंसलिंग या व्यक्तिगत थेरेपी से आप अपने अंदर के भावनात्मक उलझनों को सुलझा सकते हैं। यदि रिश्ते में सुधार की गुंजाइश हो तो माफ़ी मांगना और देना दोनों जरूरी हैं। रिश्तों को दोबारा मौका देना भी एक साहसिक और प्रेमपूर्ण कदम हो सकता है। समाज के डर से नहीं, मन की शांति के लिए सही निर्णय लें। चाहे रिश्ता बनाए रखें या अलग हों, निर्णय मानसिक संतुलन और आत्म-सम्मान को ध्यान में रखकर लें। स्वस्थ मानसिकता सफल वैवाहिक जीवन का आधार है। एक सफल दौलतजीवन मानसिक शांति का स्रोत। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। जब रिश्ते में ईमानदारी, संवाद, प्रेम और सम्मान होता है, तो न सिर्फ रिश्ता फलता-फूलता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।

बिगड़ता मानसिक स्वास्थ्य



बना देती है। वह बार-बार प्यार की तलाश में भटकता रहता है। साथ ही करियर, घर-परिवार की अपेक्षाओं से यदि व्यक्ति मानसिक रूप से टूटने लगता है तो वह दूसरे विकल्पों की ओर आकर्षित होता है। जीवन के कुछ दौर ऐसे होते हैं जब व्यक्ति के विवाहेतर संबंधों में उलझने की आशंका रहती है। जैसे वैवाहिक जीवन के पहले 5-7 वर्षों में झूज प्रेम पर धीरे-धीरे जिम्मेदारियां हावी होने लगती हैं। बच्चों के जन्म के बाद महिला का पूरा ध्यान बच्चों पर

होता है तो दूसरा साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है। 35-45 वर्ष की उम्र में जब व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों और अधूरे सपनों पर विचार करता है और 'कुछ नया' या 'खोया हुआ समय' पाने की चाह में इस तरह की गतिविधियों में उलझ जाता है। जब रिश्तों में विवादों का समाधान नहीं होता, तब भी इस तरह का खतरा बना रहता है। इस तरह की गतिविधियों का मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। विवाहेतर संबंध के बाद व्यक्ति मानसिक द्वंद्व में फंस जाता है। उसे

खुद से घृणा, शर्म और अपराधबोध महसूस होने लगता है। दोहरे जीवन की वजह से तनाव और चिंता बढ़ जाती है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। संवाद ही हर रिश्ते की नींव है। पति-पत्नी को एक-दूसरे से खुलकर बात करने, मन की बात साझा करने और बिना जज किए सुनने की आदत डालनी चाहिए। एक-दूसरे के सपनों, इच्छाओं और भावनाओं को समझना और समर्थन देना बहुत जरूरी है। साथ देना ही असली 'साथी' का काम है। रोमांस, सरप्राइज, तारीफ, साथ

संक्षिप्त समाचार

स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ने

पदभार ग्रहण किया

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- जिला विधिक सेवा प्राधिकार में स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष पद का पदभार पूर्व प्रधान जिला जज अशोक राज ने ग्रहण किया, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि स्थाई लोक अदालत बोर्ड औरंगाबाद के अध्यक्ष ने विधिक सेवा प्राधिकार का निर-िक्षण कर अभिलेखो की जानकारी ली, और जन कल्याण के कार्य सुगमता से करने में विश्वास जताया,इस अवसर पर प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद न्यायधीश दिवान फहद खां उपस्थित थे,स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने पर लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल, स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह, शिवकुल मेहता, परवेज अख्तर,जिला विधिज्ञ संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय महासचिव जगनरायण सिंह, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संजय कुमार सिंह महासचिव सिद्धेश्वर विधार्थी, सहित अन्य ने बधाई दी है।

आर्म्स एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई



रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम -चार न्यायधीश प्रदीप चंद्रा ने नवीनगर थाना कांड संख्या 56/10, ट्रायल संख्या -768/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी रणबीर ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त जितेन्द्र चंद्रवंशी रघुनाथर्गज नवीनगर को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में तीन साल की सजा और एक हजार रुपए जुमाना लगाया है, तथा धारा 26 में दो साल की सजा और एक हजार रुपए जुमाना लगाया है, दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी, अभियुक्त नवीनगर थाना कांड संख्या -55/10 में भी अभियुक्त था,अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया सिंह थानाध्यक्ष नवीनगर 26/03/10 को सुबह में नवीनगर थाना कांड संख्या -55/10 के अभियुक्त को गिरफ्तार करने रघुनाथ गंज शस्त्र बलों के साथ छापेमारी कर रहे थे तो अभियुक्त को घर से गिरफ्तार कर तलाशी में खाट के तकिया के नीचे एक देशी पिस्तौल और कुछ गोलीयां बरामद किया गया, अभियुक्त से उससे सम्बन्धित दस्तावेज मांग किया गया तो अभियुक्त ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तब विधिवत जपित चुकी बनाकर पिस्तौल और गोली जप्त किया गया,इस वाद में चार्जशीट -14/05/10 को आई थी, अभियुक्त पर 18/05/10 को संज्ञान लिया गया था, अभियुक्त पर आरोप गठन 18/05/23 को हुई थी आज निर्णय पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।

बिहार: ऊर्जा सचिव ने की बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा, शिकायतों के त्वरित समाधान के दिये निर्देश

पटना:

ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल द्वारा राज्य की दोनो वितरण कम्पनियों के ऑपरेशन एवं मेटेनेंस कार्य की एक अहम समीक्षा बैठक की गई, जिसमें एनबीपीडीसीएल के एमडी राहुल कुमार सहित मुख्यालय की पूरी टीम एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर के सभी कनीय, सहायक, कार्यपालक एक्न् अधीक्षण अभियंता उपस्थित रहे। पाल ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सभी विद्युत आपूर्ति अधीक्षण अभियंता अपने-अपने अंचल में पावर कट, लो वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर या तार क्षति जैसी समस्याओं की गिरगानी माइक्रो लेवल पर करें और उनकी त्वरित पुनर्स्थापन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बिना विरलंब के बिजली आपूर्ति बहाल हो, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी सहायक अभियंता और कनीय अभियंता लोगों की प्रत्येक कॉल को गंभीरता से लें। विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों यथा- बिजली कटौती, वोल्टेज की समस्या, और फ्यूज कॉल्स आदि का तत्काल समाधान किया जाए। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस कार्य में लापरवाही या उदासीनता बरतते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा सचिव ने फ्यूज कॉल प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया, ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण शीघ्रता से और पारदर्शी तरीके से किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को इस प्र-कार सशक्त बनाया जाए कि लोगों को बार-बार अपनी समस्याएं न दोहरानी पड़ें।

सिवान में आंधी-तूफान और बारिश से 7 लोगों की मौत, सरकार देगी अनुग्रह अनुदान



पटना:

सोमवार को राज्य के सिवान जिला के विभिन्न अंचलों में चली तेज आंधी एवं भारी वर्षापात के कारण कई स्थानों पर मकान एवं पेड़ गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। मकान एवं पेड़ों के नीचे दबकर कुछ स्थानों पर लोगों के मरने की सूचना भी प्राप्त हुई है। सिवान जिला से प्राप्त सूचना के अनुसार आंधी-तूफान तथा वर्षापात के कारण बड़हरिया अंचल में 1, बसंतपुर में 2, लकड़ी नवीगंज में 3 तथा गौरैया कोठी में 1 कुल 07 लोगों की मृत्यु हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मृतकों के निकटतम परिजनों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।

बिहार में जातिवादियों का किया जा रहा महिमामंडन और विकासवादी को मिल रही गुमनामी: महेश शर्मा

अमरेंद्र कुमार गया से दिव्य दिनकर के लिए।

बिहार की राजनीति में आज जातिवाद का जिस तरह से पोषण किया जा रहा है इससे लगता है कि कुछ दिनों में सवर्ण जातियों के लिए प्रदेश में रहना एक बहुत गंभीर चुनौती से कम नहीं होगा इस बात की जानकारी देते हुए बिहार भाजपा नेता महेश शर्मा ने बताया कि नव्ये के दशक में कोयरी दांगी समाज के एक नेता जो सिर्फ जाती की बात करते थे,आगड़ा पिछड़ा की बात करते थे,साथ ही ब्रह्मर्षि समाज जगतें समाज को अपमानित करने एवम अपमानजनक भाषा बोलने के लिए मशहूर थे जिनको जयदेव प्रसाद के नाम से जन्मजात था। ब्रह्मर्षि समाज के महिलाओं पर अपमान जनक टिप्पणी करते थे जिसके कारण वे पिछड़ा जाती के मसीहा बन गए थे। आज राजनीति की एक प्रचलन बन गई है ब्रह्मर्षि समाज को या सामान्य जाती वालों को जितना राजनीतिक गाली दो अपमानजनक शब्द बोलो उतना ही आप बिहार में सम्मानित नेता पिछड़ों के माने जाएंगे। खासकर नव्ये

के दशक के बाद सभी राजनीतिक दलों में उनका सम्मान बढ़ा जो सवर्णों को गाली देने और अपमानित करने का काम किए चाहे लालू प्रसाद यादव हो /रामविलास पासवान हो /नीतीश कुमार हो / शकुनि चौधरी हो /सम्राट चौधरी हो /अशांक चौधरी हो / इस तरह के दर्जनों नेता सभी दलों में हैं। जगदेव प्रसाद न समाज के लिए /न राष्ट्र के लिए /न राज्य के लिए / न कोई कुबानी दिए थे और नही स्वतंत्रता सेनानी थे,हां इतना जरूर था कि पिछड़ो को सामान्य जाती के खिलाफ भड़काने का कार्य किया एवं पिछड़ा वर्ग के राजनीति किये थे। उनकी हत्या कोई सामाजिक/जातीय लड़ाई में नहीं हुई थी। उनकी हत्या कैसे हुई सब कोई जानता है,किस कारण से हुई सभी लोग जानते हैं,लेकिन उनकी हत्या को लगभग सभी दलों के पिछड़े नेता शहीद का दर्जा दे दिया। कुछ दिन बाद तो उन्हें लेनिन तक कि उपाधि देने वालों में लालू प्रसाद यादव,नीतीश कुमार सहित शकुनि चौधरी ने जगदेव प्रसाद को अमर शहीद लेनिन तक उपाधि दे दिया। इतना ही नहीं इनके मूर्ति स-रकारी खर्च पर सरकारी भवन में



लगाई गई और बड़े बड़े सरकारी भवन और अस्पताल का नाम भी जगदेव प्रसाद के नाम पर रखे गए। साथ ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा जगदेव प्रसाद की पुण्य तिथि और जन्म तिथि मनाई जाती है,वोट बैंक के लिए,लेकिन उनके वंसज जो जिंदा हैं उनको तिरस्कार किया जाता है। अफसोस तब होता है ब्रह्मर्षि समाज के दर्जनों नेता जो आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी हुए /काले पानी की सजा भुगते /लाखो एकड़ जमीनदान में दिया जिसपर अस्पताल

औरंगाबाद जिले में महिला संवाद कार्यक्रम का सफल रहा आयोजन

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- जिले के सभी 11 प्रखंडों के चयनित कुल 30 ग्राम संगठनों में महिला संवाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अब तक जिले के कुल 1327 ग्राम संगठनों में महिला संवाद आयोजित किए जा चुके हैं। प्रतिदिन दो पालियों में 15 महिला संवाद रथ का संचालन किया जा रहा है। महिला संवाद, बिहार सरकार की महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करने की एक अभिव्य पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाई जा रही है। महिलाएं इन योजनाओं से प्राप्त लाभ साझा करती हैं और योजनाओं की और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने विचार भी प्रस्तुत करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब इस मंच के माध्यम से अपनी आकांक्षाएं एवं

समस्याएं निर्भीक होकर व्यक्त कर रही हैं। महिला संवाद उनके लिए न केवल एक संवाद मंच है, बल्कि यह उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन चुका है। इस पहल के अंतर्गत अब तक कुल 34,271 अपेक्षाओं को ऐप में दर्ज किया जा चुका है। कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित फिल्में महिला संवाद रथ के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही हैं। साथ ही, इन योजनाओं से संबंधित जानकारी युक्त पुस्तिकाएं और पंपलेट्स भी महिलाओं के बीच वितरित किए जा रहे हैं, जिससे की महिलाएं अब तक इन योजनाओं से वंचित हैं, वे जुड़ सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का महिलाओं के नाम विशेष संदेश भी प्रसारित किया गया। देव प्रखंड के



सवेरा ग्राम संगठन में आयोजित महिला संवाद में जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री, जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) श्री पवन कुमार, प्रबंधक (खरीदारी) श्रीकांत शर्मा, प्र-खंड परियोजना प्रबंधक (देव) श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक श्री

श्याम नारायण पांडेय, सामुदायिक समन्वयक श्री अजीत कुमार एवं श्रीमती पिंगी कुमारी सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने उपस्थित महिलाओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना एवं बालिका पोशाक योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें इनका लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जीविका से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं और अपने जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। महिला संवाद कार्यक्रम, बिहार की 'आधी आबादी' को राज्य के समावेशी और सामाजिक विकास में सक्रिय भागीदारी दिलाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। यह कार्यक्रम राज्य को सामाजिक रूप से समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर कर रहा है।

जिला पदाधिकारी ने देव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया

रिपोर्ट – प्रमोद कुमार सिंह

औरंगाबाद :- जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देव का औचक निर-िक्षण किया गया। इस निरीक्षण का उद्देश्य अस्पताल में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना तथा आम जनता को मिलने वाली मूलभूत चिकित्सीय सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के विभिन्न विभागों जैसे ओपीडी, प्रसव कक्ष, दवा भंडारण कक्ष, प्रयोगशाला, पंजीकरण कक्ष, हिट वेव वार्ड एवं अस्पताल फि-रसर की समग्र साफ-सफाई व्यवस्था का सुक्ष्म निर-िक्षण किया। उन्होंने विभिन्न पंजीयों एवं अभिलेखों की जांच की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी पंजी अद्यतन एवं व्यवस्थित ढंग से संधारित हों। उन्होंने मरीजों से संवाद स्थापित कर उनके अनुभव भी सुने और अस्पताल की कार्यप्रणाली की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि चिकित्सकों की उपस्थिति रेस्टर के अनुसार अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए और ओपीडी का



संचालन समयबद्ध रूप से किया जाए, ताकि दूर-दराज से आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोगियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाओं जैसे दवा, जांच, परामर्श, पेयजल, पंखा, शौचालय आदि की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और इनका लाभ हर मरीज तक सुनिश्चित रूप से पहुँचना चाहिए। गर्मी और लू

की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हिट वेव वार्ड की तैयारियों की विशेष समीक्षा की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि लू प्रभावित रोगियों के इलाज हेतु सभी आवश्यक दवाएं, प्राथमिक उपचार किट एवं सुविधा उपलब्ध रहें। उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को यह भी निर्देशित किया कि वे निर्धारित रेस्टर के अनुसार विभिन्न शिफ्टों में उपस्थित रहें और समग्र पर अपनी सेवाएं दें। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता को समय पर, सम्मानपूर्वक और समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही, उदासीनता या अनुराशासनहीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी और संबंधित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे अस्पताल से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, सुझाव या शिकायत जिला प्रशासन तक सीधे पहुंचाएं, ताकि व्यवस्था में लगातार सुधार हो सके।

बिहार में गंगा जल से पटेगा बड़ुआ जलाशय, सिंचाई क्षमता में आएगा बड़ा इजाफा, किसानों को मिलेगी राहत

पटना:

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कहा है कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में अब गंगा नदी के अधिशेष जल से सिंचाई की जाएगी। अभी गंगा जल से नालंदा, गया और नवादा जिलों में रहने वाले लोगों को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। अब इन इलाकों में इस जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए भी किया जाएगा। मल्ल सिंचाई भवन स्थित सभागार में आयोजित पेयजल संकट वाले क्षेत्रों के लिए रंगंगा जल आपूर्ति योजनार विषय पर परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। यह परिचर्चा जल-जीवन-हरियाली मिशन से जुड़े 15 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और

अभियंताओं की उपस्थिति में संपन्न हुई।उन्होंने इसे राज्य में जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट से निपटने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत विभाग को जो काम मिले हैं, उसको पूरा करने के लिए सभी स्तर के पदाधिकारी प्रयास करेंगे। प्रधान सचिव ने कहा कि मानसून के समय गंगा में आने वाले अधिशेष जल को पाइपलाइन के माध्यम से बांका जिले के बेलहर स्थित बड़ुआ जलाशय तक पहुँचाने की योजना बन रही है। यह जलाशय वर्षों से मानसून में भी भर नहीं पाता, जिससे इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 75-80 प्रतिशत तक घट चुकी है।



प्रस्तावित योजना से इस जलाशय को भरने के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि

औरंगाबाद, डेहरा तथा सासाराम में सोन नदी के सतही जल का उपयोग करते हुए शीघ्र ही पेयजल योजनाएं शुरू की जाएंगी। वहीं, दुर्गावती

पुनपुन नदी से अवैध बालू ढुलाई करते ट्रैक्टर जब्त, चालक फरार पर होगी सख्त कार्रवाई

हमीद नगर में उपहारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर सहित बालू जब्त, मामले की जांच जारी



रिपोर्ट – अमरेन्द्र कुमार सिंह

गोह(औरंगाबाद) उपहारा थाना क्षेत्र के हमीदनगर गांव में मंगलवार को उपहारा पुलिस ने एक बड़ी कार-रंवाई करते हुए अवैध रूप से बालू ढुलाई कर रहे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। यह ट्रैक्टर पुनपुन नदी से अवैध तरीके से बालू भरकर लाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रैक्टर को बालू सहित हमीद नगर गांव के पास से बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पकड़े गए ट्रैक्टर का स्वामी हमीद नगर निवासी देवन यादव का पुत्र भोला यादव है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पुनपुन नदी से रात्रि में अवैध रूप से बालू की ढुलाई की जा रही है। सूचना के आधार पर

उपहारा थाना की पुलिस ने त्वरित कार-रंवाई करते हुए छापेमारी की और बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। थाना प्रभारी मनेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। इस प्र-कार की गतिविधियों में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से पुनपुन नदी से अवैध बालू उठाव हो रहा था, जिससे नदी के पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

गन्ना किसानों के लिए अलर्ट: स्मट रोग और टॉप बोटर से बचाव की एडवाइजरी जारी



पटना:

आजकल गन्ना के फसल में कीड़े लगना आम बात है। इसी को देखते हुए गन्ना उद्योग विभाग ने राज्य के गन्ना किसानों को सतर्क करते हुए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। वर्तमान समय में गन्ने की फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है,विशेषकर कलिका रोग (स्मट) और ह्यूशीर्ष छिद्रक कीट (टॉप बोटर) के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कलिका (स्मट) रोग से होता है फसल को भारी नुकसान यह रोग गन्ने का एक प्रमुख फफूंद जनित रोग है, जो मार्च के अंत से जून तक अधिक तापमान (32 से 38 डिग्री सेल्सियस) में तेजी से फैलता है। खासकर खखब प्रबंधन वाले खुंदी फसल क्षेत्रों में यह अधिक देखने को मिलता है। रोगग्रस्त पौधों की पत्तियां नुकीली और खजूर की तरह हो जाती हैं, जबकि फुनगी से काले चाबुकनुमा डंटल निकलते हैं जिनमें लाखों बीजाणु होते हैं। इससे ईख की गुणवत्ता, रस और चीनी की मात्रा में भारी गिरावट आती है। बचाव के लिए विभाग की राय संक्रमित गन्नों को प्लास्टिक बैग में जड़ समेत निकालकर नष्ट करें। ग्रसित पौधों को जड़ से निकालने के बाद गन्ना फसल के प्रोपिकोनाजोल नामक फफुंद नाशी दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर 15-20 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए जिससे रोग की तीव्रता कम हो। ग्रसित पौधे वाले खेतों से अगले फसल के लिए बीज का चुनाव नहीं करना चाहिए। वैसे खेतों में फसल चक्र अपनाएं ताकि पोषिता के अभाव में कलिका रोग के बीजाणु नष्ट हो जाएं। ऐसे खेतों में कम से कम दो वर्षों तक गन्ने की खेती नहीं करने की सलाह दी जाती है। शीर्ष छिद्रक कीट से फसल को खतरा यह कीट गन्ने की पत्तियों की मध्य शिरा में छेद कर नुकसान करता है, जिससे पौधे की बढ़ावर रुक जाती है और बगल से टहनियां निकलने लगती हैं जिसे हबकी टोपेह्म कहते हैं। इसे रोकने के लिए मसाले वाली फसलों के साथ अंतरफसल करने से प्रकोप कम हो जाता है। कीटों की गिरगानी और बड़े पैमाने पर कीटों को फंसाने के लिए फसल की छतरी से 15 सेमी ऊपर एक प्र-काश जाल लगाना चाहिए। स्मट रोग और शीर्ष छिद्रक जैसे खतरनाक रोग-कीटों पर नियंत्रण के लिए समुचित प्रबंधन बेहद जरूरी है। विभाग की ओर से जारी हुए एडवाइजरी में दिये गये

जलाशय से भभुआ और मोहनिया शहरों को भी जल आपूर्ति की जाएगी। प्रधान सचिव ने आगे बताया कि जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत मोरवे, जालकोट, बासकोट एवं गरही जैसे जलाशयों को भी गंगा जल से भरने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि मानसून में गंगा का अधिशेष जल बर्बाद न होकर उपयोग में लाया जाए और हरियाली है, तभी तक सच्ची खुशहाली संभव है। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जलवायु

परिवर्तन आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बन चुकी है, और इससे निपटने के लिए हमें सतत, वैज्ञानिक और समर्पित प्रयास करने होंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए जलवायु संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जल-जीवन-हरियाली अभियान इसी सोच का विस्तार है, जिसके तहत राज्य भर में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका संरक्षण किया जा रहा है ताकि जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ ही जल संरक्षण की दिशा में इन प्रयासों के साथ-साथ अन्य अनेक कार्य भी कराए जा रहे हैं, ताकि जल संसाधनों का दीर्घकालिक और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

एनडीएमसी ने जागरूकता के लिए रिसाइकिल मेला एवथन किट, बुकलेट और पोस्टर लॉन्च किए

नई दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की पूर्व संंध्या पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने व्हाई वेस्ट वेडनसडे फाउंडेशन के साथ मिलकर रिसाइक्लिंग को आगे बढ़ाने जागरूकता से कारवाई तक थीम के तहत शुरूआत की। इस रिसाइकिल मेला श्रृंखला के तहत एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने एनडीएमसी के सचिव तारिक थॉमस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में रिसाइकिल मेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केशव चंद्रा ने कहा कि एनडीएमसी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण में सबसे पहला चेहरा हमारे स्वच्छता सेवकों का है, जो इस क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने के लिए दिन-रात मेहनत से काम करते हैं। आजकल एनडीएमसी चार कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जिसमें स्वच्छता, हरियाली, सड़कों और फुटपाथों का रखरखाव और अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। स्वास्थ्य, बागवानी, सिविल और प्रवर्तन विभाग का एक पूरी टीम बनाई गई है, जो योजना सुबह और शाम इन चारों कार्यों पर समन्वय से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी इन विभागों की टीम पूरी लगन और उत्साह के साथ सक्रिय रूप से मैदान में उतरी हुई है जिसका रुझान और परिणाम नई दिल्ली क्षेत्र में देखे जा सकते है। एनएमडीसी की टीम का आह्वान करते हुए चंद्रा ने कहा कि हमें हर दिन पूरे जोश और समर्पण के साथ काम करना होगा, ताकि एनडीएमसी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक राजधानी की तरह स्वच्छता और हरियाली का एक सुंदर शहर बन सके।

सिरफिरे आशिक ने युवती की चाकू घोंपकर हत्या की, गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण जिले के महारौली इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने 18 वर्षीय युवती की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित ने युवती के शव को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। हत्या के करीब 22 घंटे बाद पुलिस ने युवती का शव महारौली स्थित संजय वन से बरामद किया है। शव मिलने के बाद दो जिलों की पुलिस सीमा विवाद में उलझ गई। करीब दो घंटे तक चले सीमा विवाद के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने दखल दिया और दक्षिणी दिल्ली के महारौली थाने में हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 18 वर्षीय महक जैन परिवार के साथ जहंगीरपुरी इलाके में रहती थीं। परिवार में माता-पिता के अलावा एक बड़ी बहन है, जो निजी कंपनी में नौकरी करती है और नौएड्डा में रहती है। पिता राकेश चांदनी चौक स्थित एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करते हैं। परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। महक जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के ओपन से प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थीं। वह अपनी क्लास लेने के लिए विवेक विहार स्थित विवेकानंद कॉलेज जाती थीं।

चांदनी चौक इलाके में फायरिंग कर दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान से 35 लाख लूटे

नई दिल्ली। उत्तरी जिले के चांदनी चौक इलाके में एक ज्वेलरी दुकान पर दिनदहाड़े बढमाशों ने फायरिंग की और ज्वेलरी दुकान से 35 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। दुकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। पुलिस बढमाशों को तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार चांदनी चौक के कटरा नील के सामने ज्वेलरी की दुकान है। दोपहर के समय दुकान पर अचानक फायरिंग होने लगी। इसी बीच कुछ बढमाश ज्वेलरी दुकान में घुस गए और डरा धमका कर शोरूम के कैशियर विक्की जैन से 35 लाख रुपये लूटकर साथियों के साथ फरार हो गए। लूट की वारदात के बाद दुकान मालिक ने आनन-फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल व पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 14.30 बजे कटरा नील, चांदनी चौक में लूट के संबंध में एक पीसीआर कॉल थाना लाहौरी गेट में प्राप्त हुई। मौके पर मौजूद दुकान के कैशियर विक्की जैन (40) ने घटना की जानकारी दी। जांच के दौरान विक्की के ऑफिस का दरवाजा टूटा पाया गया। विक्की जैन ने बताया कि दो व्यक्ति उसके ऑफिस में आए और कांच के दरवाजे पर गोली चलाकर करीब 35 लाख रुपये लूट ले लिए। इस दौरान उनके साथ एक और शख्स था, जो सीढ़ियों से नीचे खड़ा था।

युवक की गोली मारकर हत्या, पहचान छिपाने के लिए जलाने का किया प्रयास

नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर आरोपितों ने शव को जलाने की भी कोशिश की। सड़क के किनारे झाड़ियों में अर्द्धजलीला लाश देखकर लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोमवार देर रात तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपितों का पता लगाने में जुट गई। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से भी पुलिस आरोपितों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

देश में कोरोना के एक्टिव केस 4 हजार के करीब, 24 घंटे में 6 मौतें, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

एजेंसी नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस चिंता बढ़ा रहा है। बीते कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में तेज़ उछल देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3976 हो चुकी है। महज 10 दिनों में संक्रमितों की संख्या में 15 गुना इजाफा हुआ है, जो एक गंभीर संकेत है। केरल इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां 1435 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां 506 मरीज अभी इलाजरत हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, यहां 238 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, जिससे इस लहर में जान गंवाने वालों की कुल संख्या 34 हो गई है। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती युवती और 47 वर्षीय महिला की मौत हो गई। रविवार को दिल्ली में 22 साल की युवती और तमिलनाडु में

25 साल का युवक इस वायरस का शिकार हो गया था।

कोरोना के दोबारा फैलाव को



देखते हुए राज्य सरकारें भी हक़त में आ गई हैं। कर्नाटक सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और स्वच्छता का पालन करें। बुखार, खासी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है।

एनसीईआरटी ने 5 लाख से अधिक नकली पाठ्य पुस्तकों सहित

एजेंसी नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नकली पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, वितरण और बिक्री में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पिछले

14 महीनों में, एनसीईआरटी ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर 5 लाख से अधिक नकली पाठ्य पुस्तकें, बड़ी मात्रा में मुद्रण कागज और 20 करोड़ रुपये से बिक्री में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पिछले

अमित शाह की अध्यक्षता में अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोले के अलावा सहकारिता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहित अन्य संगठनों के अधिकारी उपस्थित थे। अमित शाह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने की दिशा में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक प्रगति को मापने के



दो प्रमुख मापदंड हैं, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और रोजगार सृजन। अन्न भंडारण योजना इन दोनों पहलुओं को सशक्त बनाने का माध्यम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस)

की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ

ग्रामीण रोजगार के अवसरों को

सृजित करना है। शाह ने कृषि अवसरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत ऋण अवधि के विस्तार से पीएसीएस की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय

एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी का दबदबा, चार जेठों पर किया कब्जा

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड कमेटीयों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच में से चार जेठों पर कब्जा बरकरार रखा है। पार्टी ने हुए चुनाव में सिटी एसपी, करोल बाग और वेस्ट जेन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत हासिल की, जबकि रोहिणी जेन में अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष



सौरभ भारद्वाज ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 15 पाषण्दों के पार्टी छोड़ने और भाजपा के समर्थन से नया गुट बनाने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने चार जेठों पर अपना दबदबा कायम रखा है। उन्होंने कहा, भाजपा का समर्थन मिलने के बाद भी नया गुट एक भी जेन में जीत नहीं सका। यह पार्टी की एकजुटता और जनता के विश्वास

चार देशों के दौरे से लौटा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का पहला गुप, ‘आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस’ का दिया संदेश

एजेंसी नई दिल्ली। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए गाँठ सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन का पहला गुप अपने चार देशों के सफ़ल दौर का समापन कर चुका है। डेलीगेशन ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया का सफ़ल दौरा किया।

इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत की विदेश नीति की नई दिशा को रेखांकित करते हुए आतंकवाद के प्रति भारत के ‘जिरो टॉलरेंस’ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यू नॉर्मल’ का स्पष्ट और प्रभावी संदेश इन देशों तक पहुंचाया। इस प्रतिनिधिमंडल ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के बावजूद एक स्वर में भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा, जिससे भारत की ‘इंडिया फ़र्स्ट’ नीति की गुंज चारों देशों में सुनाई दी। इस प्रतिनिधिमंडल के गुप का नेतृत्व वरिष्ठ सांसद बैजयंत जय

असम की ‘पुश बैक’ नीति पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश

एजेंसी नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की 'पुश बैक' नीति के तहत 69 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजे जाने की कार्रवाई को खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। यह याचिका ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने दायर की थी, जिसमें असम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में दावा किया गया है कि असम सरकार बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के लोगों को विदेशी नागरिक मानकर हिरासत में ले रही है और उन्हें बांग्लादेश सीमा के पार भेज रही है।खासकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले गरीब और वंचित भारतीय नागरिकों को बिना किसी जांच या सुनवाई के जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि कई बार भारतीय नागरिकों को भी गलती से

विदेशी समझकर सीमा पार भेजा जा रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि किसी को विदेशी नागरिक घोषित करने से पहले फरिन ट्रिब्यूनल द्वारा उचित सुनवाई की जाए। साथ ही, अपील का मौका देने और विदेश मंत्रालय से नागरिकता की पुष्टि होने तक किसी को भी सीमा पार न भेजा जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असम सरकार की 'पुश बैक' नीति के तहत की जा रही कार्रवाई पारदर्शी नहीं है और इससे कई निर्दोष लोग प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में ले जाने का निर्देश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता वहां अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिससे याचिकाकर्ताओं को अब हाईकोर्ट में अपनी मांगें उठानी होंगी।

एजेंसी नई दिल्ली।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मॉडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा स्थगित कर दी है। नीट पीजी की परीक्षा पहले 15 जून के लिए निर्धारित थी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। पिछले सप्ताह एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्राधिकरण से एमबीबीएस और डेंटल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए दो के बजाय एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनबीएमएस ने घोषणा की कि अब नीट-पीजी 2025 एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस निर्णय के लिए लॉजिस्टिक समायोजन की आवश्यकता है, विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और सभी उम्मीदवारों को एक साथ समायोजित

मेरी विधानसभा में डीडीए लोगों के आशियाना उजाड़ना चाहता है : अमानतुल्लाह खान

एजेंसी नई दिल्ली । दिल्ली के ओखला विधानसभा के अंतर्गत बाटला हाउस, जामिया में डीडीए की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इस मामले में फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। जुलाई माह में इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है।

इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि आशियाना बनाने में जमाने लग जाते हैं और डीडीए उसे उजाड़ने के लिए सामने आ जाता है। आज हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है कि जुलाई के पहले सप्ताह में जब भी कोर्ट खुलेगा, इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच द्वारा की जाएगी, तब तक, जिन लोगों पर

विध्वंस का खतरा मंडरा रहा है, उन्हें पीएम-उदय या किसी भी लागू योजना के तहत राहत लेने और तदनुसार अपने व्यक्तिगत आवेदन



प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। अधिवक्ता अदील अहमद ने बताया कि यहां मुख्य मुद्दा यह है कि खसरा नंबर 279 के तहत जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का

भाजपा ने पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार भारी बारिश से प्रभावित लोगों की मदद का किया आह्वान

एजेंसी नई दिल्ली। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 34 लोगों की जान जा चुकी है। इसके लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चिंता जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में लगातार भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए गहरी चिंता है। उन्होंने भाजपा की सहयता प्रदान करने का निर्देश जारी दिशा-निर्देशों में हरसंभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में सभी से आवश्यक सावधानी बरतने,

करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। एक आधिकारिक अधिसूचना में एनबीई ने कहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. संख्या 456/2025 में



आदेश दिया है कि- हम, तदनुसार, प्रतिवादियों को एक शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे और सुरक्षित केंद्रों की पहचान की जाए और उन्हें चालू किया जाए। इसके अनुसार एनबीईएमएस एक ही शिफ्ट में नीट-पीजी 2025 आयोजित करेगा।

दिल्ली में भक्त कवि जयदेव की विरासत और गीत गोविंद का जश्न

संगीत और नृत्य प्रदर्शन समारोह में दूरदर्शन के वाह उत्पाद शो के विजेता संदीप मोहंती द्वारा गायन और विश्वजीत मोहापात्रा द्वारा एकल बांसुरी प्रदर्शन भी शामिल



था। पहले दिन की शुरुआत जयदेव पर लिखे गए शब्द कीर्तन के साथ हुई, जिसमें भक्त जयदेव के सिख गुरुओं पर प्रभाव और गुरु ग्रंथ साहिब में उनके उल्लेख पर चर्चा की गई। अष्टपदी गीतों को वोक्लिस्ट सुरेश सेठी और नाजिया आलम ने प्रस्तुत किया। इसके बाद ओडिसी, कथक और विलासिनी नाट्यम में शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की एक शानदार श्रृंखला थी।

प्रसिद्ध कलाकारों रीत राजगुरु, कविता द्विवेदी, पूर्वाधनश्री और विद्या लाल ने जयदेव की भक्ति कविता और सूफी रहस्यवाद के बीच साझा अनुनाद का अन्वेषण

किया।समारोह का समापन 1987 की क्लासिक ओडिया फिल्म जयदेव के प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसमें कवि के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को सिनेमाई श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार चुपुली कुमार साहू द्वारा नबागुंजर की 7 फीट की फाइबरग्लास मूर्ति की स्थापना भी की गई, जो कथक के विश्व रूप का प्रतीक है।

20 करोड़ रुपए की मशीनरी जब्त की

पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। मंत्रालय के अनुसार, काशीपुर में एक कागज मिल के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अवैध एनसीईआरटी वॉटरमार्केंड पेपर बना रही थी।

एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अब प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर एमआरपी पर बिना डिलीवरी शुल्क के उपलब्ध हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी-आधारित एंटी-पाइरेसी समाधान को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में

पेश किया गया है। मंत्रालय ने छात्रों, अधिभावकों और शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वे नकली पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की किसी भी घटना की जानकारी एनसीईआरटी को pd.ncert@nic.in पर दें।

केंद्र ने इलेक्ट्रिक यात्री वाहन विनिर्माण योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। यह योजना ईवी यात्री कार क्षेत्र में वैश्विक निर्माताओं से नए निवेश को सक्षम करेगी और भारत को ई-वाहनों के लिए वैश्विक विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर विशेष ध्यान देते हुए यात्री कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक दूरदर्शी योजना को मंजूरी दी है। ये ऐतिहासिक पहल 2070 तक नेट जीरो हासिल करने, टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। मंत्रालय के मुताबिक इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जल्द ही जारी किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत संचालित आवेदक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। यह योजना वैश्विक ईवी निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगी। यह योजना भारत को ईवी के विनिर्माण के लिए वैश्विक मार्गचित्र पर लाने, रोजगार पैदा करने और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी।

दो हजार रुपये के 6,181 करोड़ रुपये के नोट अभी भी जनता के पास : आरबीआई

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कहा कि 2000 रुपये के नोट बंद करने के दो साल बाद भी 6,181 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब भी जनता के पास यानी प्रचलन में हैं। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। ये 2000 रुपये के नोट अब भी वैध मुद्रा हैं। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जो 31 मई, 2025 को कारोबार बंद होने पर घटकर 6,181 करोड़ रुपये रह गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, “इस प्रकार 19 मई, 2023 तक प्रचलन में रहे 2000 रुपये के 98.26 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं।” रिजर्व बैंक ने कहा कि 2000 रुपये के बैंक नोट कानूनी मुद्रा बने रहेंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपये के इन बैंक नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। ये सुविधा अब केवल रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई के निर्गम कार्यालय 9 अक्टूबर, 2023 से लोगों तथा संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2000 रुपये के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के जरिए 2000 रुपये के नोट को लोग अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए किसी भी आरबीआई कार्यालय में भेज सकते हैं।

भारत-ओमान व्यापार समझौते पर जल्द ही अच्छी खबर आएगी: पीयूष गोयल

नई दिल्ली। फ्रांस की यात्रा पर गए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेरिस में टोटल एनर्जीज के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पैट्रिक पॉयने से यहां मुलाकात की। इस दौरान पैट्रिक पॉयने ने भारत के लिए कंपनी की निवेश योजनाओं और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में गहन सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और ओमान के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत आगे बढ़ रही है। इस पर कुछ अच्छी खबर 'बहुत जल्द' आ सकती है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने सीईओ पैट्रिक पॉयने से मुलाकात के दौरान भारत के लिए कंपनी की निवेश योजनाओं और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में गहन सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। वह 3 जून को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की एक लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे।इसके बाद गोयल ने पत्रकारों से कहा, “मुझे लगता है कि ओमान एफटीए पर आपको बहुत जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसी नेताओं और कारोबारियों से बातचीत करने के लिए आधिकारिक यात्रा पर यहां आए हैं। इस साल जनवरी में गोयल की मस्कट यात्रा के बाद वार्ता को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने कहा कि ओमान भारत के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। भारत का पहले से ही एक अन्य जीसीसी सदस्य यूएई के साथ ऐसा ही समझौता है।

सर्फाफा बाजार में तेजी से उछला सोना, चांदी भी एक लाख के स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली। घरेलू सर्फाफा बाजार में आज तेजी का माहौल बना हुआ है। सोना आज 290 रुपये से लेकर 320 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। भाव में उछाल आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्फाफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 97,640 रुपये से लेकर 97,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 89,500 रुपये से लेकर 89,650 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी आज तेजी आई है। इस तेजी के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्फाफा बाजार में आज एक बार फिर एक लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 97,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 89,650 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

टेस्ला को भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं: कुमारस्वामी

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा कि वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) दिग्गज टेस्ला भारत में कारों के निर्माण में दिलचस्पी नहीं रखती है, लेकिन देश में शोरूम स्थापित करने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन-स्कोडा, हुड्डे की भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में रुचि है।
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने यहां भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए दिशा-निर्देशों के अनावरण की घोषणा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। कुमारस्वामी ने कहा कि मर्सिडीज बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, हुड्डे और किआ सहित



शोरूम शुरू करने में अधिक (रुचि रखते हैं)। वे भारत में विनिर्माण (शुरू) करने में रुचि नहीं रखते हैं। यह योजना ईवी यात्री कार सेगमेंट में

टेस्ला की भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएम मोदी और मस्क मिलकर करेंगे काम - एरोल मस्क

एजेंसी वाशिंगटन। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। उन्होंने आईएनएस से टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पीएम मोदी और मस्क कुछ ऐसा करेंगे, जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। राष्ट्रीय राजधानी में से बात करते हुए एरोल मस्क ने कहा कि टेस्ला को देश में लाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भारत के हिੱतों को देखना होगा। 79 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी व्यवसायी ने जोर देते हुए कहा, एलन को एक कंपनी के रूप में टेस्ला के हिੱतों को देखना होगा। दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे, जो टेस्ला के साथ ही भारत के लिए भी सबसे अधिक लाभकारी हो। हालांकि, मैं यह एक निजी व्यक्ति के रूप में कह रहा हूँ क्योंकि टेस्ला एक सार्वजनिक



कहा, भारत में टेस्ला प्लांट होना ही चाहिए। भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। सर्वोत्कृष्ट रियलएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के वैश्विक सलाहकार एरोल मस्क की भारत यात्रा,

सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में देश की तेजी से बढ़ती प्रगति और ग्रीन एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने की महत्वाकांक्षा को



रेखांकित करती है।भारत ने ईवी अपनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। देश का लक्ष्य 2030 तक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 30 प्रतिशत, संयुक्त दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में 80 प्रतिशत और

जेएनएआरडीडीसी ने हैदराबाद में गैर-लौह पुनर्चक्रण हितधारकों के साथ विशेष संवादात्मक बैठक की मेजबानी की

एजेंसी नई दिल्ली। देश के पुनर्चक्रण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम अनुसंधान विकास एवं डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी) के पुनर्चक्रण संवर्धन प्रभाग ने हैदराबाद में अलौह पुनर्चक्रण हितधारकों और व्यापारियों के साथ एक केंद्रित संवादात्मक बैठक की। खान मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि इस कार्यशाला में तेलंगाना एल्युमीनियम यूटैलिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीएएमएए), एल्युमीनियम एक्सट्रुडर एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलईएमएआई) और मेटैरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई) सहित प्रमुख उद्योग निकायों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। जेएनएआरडीडीसी ने घरेलू जरूरतों के लिए तैयार एल्युमीनियम रिसाइक्लिंग प्रौद्योगिकियों और मिश्र धातु विकास में अपने हालिया शोध का प्रदर्शन किया गया।



भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के एक प्रतिनिधि ने भी उपस्थित लोगों को इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के बारे में जानकारी दी।



केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी की पहचान रेड्डी के मार्गदर्शन में इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण से भारत के धातु रिसाइक्लिंग उद्योग की दीर्घकालिक मजबूती, स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा

सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुनर्चक्रण से जुड़ी जमीनी चुनौतियों को समझने और पुनर्चक्रण क्षेत्र को आधुनिक तथा सशक्त



बनाने में व्यावहारिक सहायता प्रदान करने के लिए पुनर्चक्रण करने वालों व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं सहित अलौह रिसाइक्लिंग हितधारकों के साथ सीधे जुड़ना था। इस सत्र का एक मुख्य आकर्षण पुनर्चक्रण उद्योग की परिवर्तनकारी क्षमता थी, जो प्राथमिक अयस्क क्रम उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा का केवल एक अंश ही खपत करता है।

2030 तक हर वर्ष 500 मिलियन यात्री भरेंगे उड़ान, देश स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस में एक ग्लोबल लीडर : पीएम मोदी

एजेंसी नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में एक विशाल बाजार के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि देश स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस में एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) की 81वाँ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएटीएच) में पीएम मोदी ने विश्व स्तरीय हवाई अवसरचरना विकसित करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।उन्होंने चार दशक बाद भारत में आयोजित इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने इस



अवधि के दौरान भारत में हुए परिवर्तनकारी बदलावों पर जोर देते हुए कहा कि आज का भारत पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, देश न केवल एक विशाल बाजार के रूप में, बल्कि नीतिगत नेतृत्व, इनोवेशन और

समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में नागरिक उड्डयन में भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उन्होंने उड़ान योजना की सफलता पर जोर देते हुए इसे भारतीय नागरिक



समावेशी विकास के प्रतीक के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में नागरिक उड्डयन में भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उन्होंने उड़ान योजना की सफलता पर जोर देते हुए इसे भारतीय नागरिक

405 रुपये के स्तर तक पहुंच गए। इस गिरावट के बाद इन शेयरों की लिवाली शुरू हो गई, जिसके कारण 0.13 प्रतिशत का ही फायदा हो सका। श्लॉस बैंगलोर को 3,500 करोड़ रुपये का आईपीओ 26 में से 28 में तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। ये आईपीओ 4.72 गुना सब्सक्राइव हुआ था। आईपीओ खुलने के पहले 23 मई को कंपनी ने एंकर बुक के जरिए भी 1,575 करोड़ रुपये जुटाने में सफलता हासिल की थी। आईपीओ के जरिए 5.75 करोड़ नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके साथ ही प्रमोटर्स की ओर से 2.30 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत बेचे गए हैं।

श्लॉस बैंगलोर की निराशाजनक लिस्टिंग, निवेशकों को हुआ मामूली मुनाफा

एजेंसी नई दिल्ली। लीला ग्रुप के तहत लज्जरी होटल और रिसॉर्ट चैन चलाने वाली कंपनी श्लॉस बैंगलोर के शेयरों की कमजोर लिस्टिंग के कारण आज कंपनी के आईपीओ निवेशकों को काफी निराशा का सामना करना पड़ा। लिस्टिंग के बाद खरीदारों ने लिवाली करके निवेशकों के नुकसान को भरपाई भी कर दी। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 435 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी एंटी 6.55 प्रतिशत के डिस्काउंट के साथ 406.50 रुपये के स्तर पर हुई। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्चेंज पर कंपनी के शेयर 6.67 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 406 रुपये के स्तर पर लिस्ट हुए। टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत करने वाले श्लॉस बैंगलोर के शेयर लिस्टिंग के बाद बिकवाली के दबाव में गिरकर

कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 70 प्रतिशत ईवी पेंनेट्रेशन हासिल करना है। इस साल अप्रैल में, एलन मस्क और पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, «पीएम मोदी से बात करना सम्मान की बात थी। मैं इस साल के अंत में भारत आने का इंतजार कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने टेस्ला के सीईओ के साथ कई विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, एलन मस्क से बातचीत और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल हैं। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की।

देश का कोयला उत्पादन मई माह में 86.24 मीट्रिक टन

एजेंसी नई दिल्ली।भारत के कोयला उत्पादन और प्रेषण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगातार वृद्धि देखी गई है। देश में मई, 2025 के दौरान कुल कोयला का उत्पादन 86.24 मीट्रिक टन (अन्तिम) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में उत्पादित 83.96 मीट्रिक टन कोयला से अधिक है। कोयला मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि मई 2025 के दौरान देश में कुल कोयला उत्पादन 86.24 मीट्रिक टन (अन्तिम) तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में उत्पादित 83.96 मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय के मुताबिक मई महीने के दौरान कैप्टिव/वाणिज्यिक खदानों से उत्पादन 16.93 मीट्रिक टन (अन्तिम) रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज 13.83 मीट्रिक टन से अधिक की

कमजोर लिस्टिंग के बाद संभले एजिस वोपैक के शेयर, पहले दिन निवेशकों को 2.98 प्रतिशत का फायदा

एजेंसी नई दिल्ली। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए स्ट्रेजर टर्मिनल को ऑपरेट करने वाली कंपनी एजिस वोपैक टर्मिनल्स लिमिटेड के शेयरों की आज शेयर बाजार में काफी निराशाजनक एंटी हुई। लिस्टिंग के बाद खरीदारों ने इस शेयर को हाथों-हाथ लिया, जिसके कारण कुछ ही देर में ये शेयर उछल कर इश्यू प्राइस से ऊपर चला गया। आईपीओ के तहत कंपनी ने 235 रुपये के भाव पर शेयर जारी किए थे। आज बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयर 6.38 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 220 रुपये के स्तर पर लिस्ट हुए।स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट के साथ लिस्ट होने के बाद खरीदारों ने कंपनी के शेयरों की लिवाली शुरू कर दी, जिसके लगवा इस शेयर की चाल में भी तेजी आ गई। लगातार हो रही खरीदारी के बीच

देश का कोयला उत्पादन मई माह में 86.24 मीट्रिक टन

उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय के मुताबिक 31 मई, 2025 तक कोयला कर्पनियों के



मौजूदा कोयला भंडार में 29.18 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 94.98 मीट्रिक टन की तुलना में 122.69 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। यह वृद्धि देशभर में कोयला उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रमाण है। कोयला के उत्पादन में यह वृद्धि देश के कुल कोयला उत्पादन में कैप्टिव/कमर्शियल खनन


रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक 4 जून से, रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती संभव

एजेंसी नई दिल्ली।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) महंगाई दर के चार फीसदी के औसत लक्ष्य से नीचे बने रहने के कारण लगातार तीसरी बार नीतिगत ब्याज दर में 0.25 फीसदी की और कटौती कर सकता है, ताकि अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच विकास को बढ़ावा दिया जा सके। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक 4 जून, रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक के फैसलों का ऐलान 6 जून, आरबीआई गवर्नर करेंगे। जानकारों का कहना है कि आरबीआई इस बार भी नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है। आर्थिक मामलों के जानकारों को मानना है कि मौजूदा

समय में महंगाई दर संतुलित स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने तरलता की स्थिति को कई उपायों के माध्यम से काफी सहज बना दिया है। ऐसे में उपाय है कि आरबीआई 4-6 जून तक चलने वाली एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा इस बैठक में आरबीआई अपनी विकास दर और महंगाई दर के अनुमान को भी संशोधित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली और बीते वित्त वर्ष 2024-25 की अंतिम एमपीसी बैठक यानी इस साल फरवरी और अप्रैल में लगातार दो बार प्रमुख नीति गत ब्याज दर (रेपो रेट) में 0.25-0.25 फीसदी की कटौती की, जिससे यह 6.50 फीसदी से घटकर 6 फीसदी पर आ गई है।

रुपया 16 पैसे मजबूत

एजेंसी मुंबई। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ने से दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर पड़ने से आज अंतर्बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 16 पैसे मजबूत होकर 85.40 रुपये प्रति



डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, इसके पिछले कारोबारी दिवस रुपया 85.56 रुपये प्रति डॉलर पर रहा था। कारोबार की शुरुआत में रुपया एक पैसे बढ़कर 85.55 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और सत्र के दौरान यही इसका दिवस का निचला स्तर रहा। वहीं, आयातकों एवं बैंकों की बिकवाली से यह 85.31 रुपये प्रति डॉलर के उच्चतम स्तर पर भी रहा। अंत में पिछले दिवस के 85.56 रुपये प्रति डॉलर की तुलना में 16 पैसे मजबूत होकर 85.40 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया।


खास बातें ऑयली त्वचा के लिए

गर्मियों का प्रकोप शुरू हो चुका है। तन को सहलाती धूप अब पीड़ा देने लगी है। ये तपती धूप कहीं आपको खूबसूरती को नुकसान न पहुंचा दे। क्योंकि गर्मियों में तैलीय ग्रंथियां अधिक सक्रिय होने व पसीना आने की समस्या बढ़ जाती है। तेल और पसीना त्वचा पर जमा होकर इसे बहुत तैलीय बना देते हैं। तैलीय त्वचा पर धूल-मिट्टी के कण जमा होने के कारण त्वचा संबंधी समस्या शुरू हो जाती है। इस मौसम में तैलीय त्वचा सबसे अधिक प्रभावित होती है। अगर आपको त्वचा ऐसी ही है तो आप उसकी देखभाल कैसे करें, बता रही हैं सौंदर्य।

- त्वचा ऑयलफ्री रहे। इसके लिए कुदरती गुणों से युक्त ऑयलफ्री फेसवॉश से नियमित सफाई करें। कभी भी ग्लिसरीन युक्त सोप का प्रयोग न करें।
- ऑयली त्वचा की क्लींजिंग अहम होती है। क्लींजिंग से त्वचा पर जमी धूल-मिट्टी, मेकअप, मृतकोष हट जाते हैं और त्वचा के छिद्र साफ हो जाते हैं। इस तरह आप ब्लैक



- हेड्स जैसी समस्या से बची रह सकती है। हफ्ते में एक बार लाइट स्क्रब का इस्तेमाल करें।
- चावल के आटे में पुदीने का अर्क तथा गुलाबजल मिलाकर चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं। इसे हलके हाथों से गोलाई में घुमाते हुए चेहरे पर लगाएं। फिर धो लें।
 - अपने पर्स में गुलाब व लैवेंडर बेस वाला स्किन टॉनिक रखें। इसके अलावा वेट टिशू भी रखें। ताकि चेहरे पर जमा धूल-मिट्टी को हटा सकें।
 - रात को सोने से पहले त्वचा साफ करना न भूलें। इससे त्वचा पर मुंहासे व ब्लैक हेड्स नहीं बनेंगे।
 - ऑयली त्वचा पर एक्ने हों तो टी ट्री एंटी पिंपल जेल और जेल मॉयस्चराइजर का प्रयोग करें जो त्वचा में तेल ग्रंथियों के अतिरिक्त सिक्रीशन को कम करता है।
 - ऐसी त्वचा वालों को तनावमुक्त रहना चाहिए। क्योंकि तनाव ऑयली त्वचा को प्रभावित करता है। तनावमुक्त रहने के लिए आप योग तथा मेडिटेशन का सहारा ले सकती है।
 - त्वचा के सीबम ऑयल को नियंत्रित करने के लिए अधिक तेल-मसालेदार भोजन का त्याग करना जरूरी है।
 - तैलीय ग्रंथियों को संतुलित करने के लिए फाइबर युक्त भोजन लें। सुबह शाम एक-एक बोल सैलेड जरूर खाएं।
 - भोजन में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाएं जैसे नींबू, संतरा और आंवला आदि का सेवन करें।
 - चाय-कॉफी का सेवन न करें। क्योंकि ये चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करती हैं।



कुछ आसान से टिप्स जिन पर अमल करके आप अपने सौंदर्य को गर्मियों के दिनों में भी बरकरार रख सकती हैं

- गर्मियों के मौसम में आपका मेकअप देर तक टिका रहे, इसके लिए मेकअप करने से पहले चेहरे पर आइस क्यूब्स रगड़ें।
- आजकल के मौसम में दिन में बहुत हल्का मेकअप करें। मेकअप से पहले एस्पीएफ युक्त टिंटेड मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।
- चेहरा साफ करने के लिए हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। इससे

गर्मियों को कहें बाय..



गर्मियों में टैनिंग की समस्या आम बात है, लेकिन बाहर जाकर होने वाले कार्मों को तो नहीं रोका जा सकता। इसलिए धूप से वापस घर पहुंचने पर चेहरे पर खंझ दही लगाएं। सूखने पर ठंडे पानी से साफ करें। नींबू और खीरे के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर पंद्रह मिनट तक लगाने के बाद ठंडे पानी से धोएं। दही के साथ एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे के अलावा दूसरे खुले अंगों पर लगाने के बाद गुनगुने पानी से धोएं। गर्मी में हाथों और पैरों का भी खास ख्याल रखने की जरूरत है। ऑलिव ऑयल, नींबू का रस और शक्कर को मिलाकर पेस्ट बनाने के बाद उसे हाथों पर लगाएं। पैरों के लिए गर्म पानी में नींबू का रस मिलाने के बाद उन्हें उसमें थोड़ी देर भीगने दें।

एक्सफॉलिएट

पसीना और धूल मिट्टी चेहरे की त्वचा को बदरंग कर उसमें संक्रमण पैदा कर सकता है, इसलिए एक्सफॉलिएशन बहुत जरूरी है। इसके लिए हरे चने का पाउडर, हल्दी और दूध को मिलाकर पेस्ट बना लें। ठंडे पानी से शॉवर लेने के पहले

क्या झुलसा देने वाली गर्मी में भी सुंदर दिखना आसान है? क्या संभव है सूरज की तपिश में भी त्वचा को खूबसूरत और चमकदार बनाए रखना? क्या बचा जा सकता है सूरज से निकलने वाली तेज किरणों से होने वाली टैनिंग, रैशेज और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से? इन सभी सवालों का जवाब है हां! इस मौसम आपकी त्वचा को दागदार न होने देंगी ये टिप्स..

गुलाब जल

गुलाब जल सूरज की किरणों से त्वचा को सुरक्षित रखने में मदद करता है, इसलिए अपनी मेकअप किट में इसे जरूर शामिल करें। रैशेज को दूरकर त्वचा को चमकदार बनाने के लिए गुलाब जल में बेबी पाउडर मिलाकर नियमित अंतराल में इसका प्रयोग त्वचा पर करती रहें। यह उन बैक्टीरिया को भी पनपने से रोकता है, जो चेहरे पर मुंहासे और ब्लैकहेड्स को जन्म देते हैं। यदि फेसपैक तैयार कर रही हैं तो पानी के बजाय गुलाब जल का प्रयोग करें। चंदन पाउडर और मुलतानी मिट्टी को गुलाब जल के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से एक सप्ताह में चेहरे की चमक को निखारा जा सकता है।



इसका इस्तेमाल स्क्रब के रूप में करें। अंतिम

शॉवर के बाद गुलाब जल लगाएं।

पसीना

कोशिश करें कि त्वचा हमेशा सूखी रहे। गंदगी चेहरे पर ही पसीने के साथ न सूखे, इसलिए नियमित अंतराल पर चेहरा पोछती रहें। नींबू और खीरे के रस को मिलाकर फ्रिज में जमा लें और फिर इन क्यूब्स को चेहरे पर मलें।

हेयर केयर

पसीना और सूरज की तपिश बालों को रूखा और बेजान बना देती है। इससे बचने के लिए जितना हो सके बालों को धोती रहें। माइल्ड शैंपू और अच्छे कंडीशनर का इस्तेमाल करें। चाहें तो इस घरेलू उपाय पर भी अमल कर सकती हैं। एक कप पानी में चाय की पलियां उबाल लें और ठंडा होने पर उसमें आधे नींबू का रस मिलाएं। शैंपू के बाद इस मिश्रण को बालों पर लगाएं। ठंडे पानी से साफ करें। यह बालों में चमक और उछाल पैदा करता है। इस मौसम में बालों को ड्रायर की मदद से सुखाने की कोशिश न करें।

ऐसे निखारे अपना रंग रूप

मसाज करने से फॉलिकल्स का रक्त संचार बढ़ता है।

- अगर आप स्वीमिंग की शौकीन हैं तो स्विमिंग करने से पहले शावर कैप जरूर लगाएं। कारण, स्विमिंग पूल के पानी में मौजूद क्लोरीन बालों के लिए नुकसानदेह होता है। बालों को सुरक्षित रखने के लिए थोड़े से जैतून के तेल में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं।

फाउंडेशन

गर्मी के मौसम में जितना कम मेकअप किया जाए उतना ही फायदेमंद रहता है। यदि मेकअप कर ही रही हैं तो फाउंडेशन का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करें, क्योंकि यह चेहरे के रोमछिद्र बंद कर देता है, जिससे मुंहासों की समस्या हो सकती है। आंतरिक खूबसूरती को निखारने के लिए जितना हो सके फलों और सलाद का सेवन करें।

पानी

गर्मियों के मौसम में जितना पानी पिएं उतना ही बेहतर है। इस मौसम में पानी ही त्वचा को हाइड्रेट करने के साथ चमकदार और कोमल बनाए रखता है। फलों के रस या दूसरे आर्टीफिशियल ड्रिक्स इसकी भरपाई नहीं कर सकते।

स्वीमिंग

यदि स्वीमिंग करने का मन बना रही हैं तो पूल में उतरने से पहले पानी में मौजूद क्लोरीन से त्वचा को सुरक्षित रखने के लिए लैवेंडर ऑयल और वैसलीन का मिश्रण बनाकर पूरे शरीर में लगाएं।

छुटकारा

चिपचिपे बालों से

बदलते मौसम का सबसे जल्दी असर बालों पर ही पड़ता है। इस मौसम में बालों में चिपचिपापन और तैलीयता ज्यादा नजर आती है। इसके लिए अपनाएं हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के बताए इन आसान उपायों को।

- रुई के टुकड़े या कॉटन बोल को गुलाबजल में भिगोकर बालों की जड़ों में लगाएं। इससे उनकी चिकनाई कम होगी। इसके बाद शैंपू कर लें।
- हार्ड पर्मिंग और हानिकारक केमिकल के प्रयोग से बालों को दूर रखें। यह सीजन किसी भी प्रकार के प्रयोग का नहीं है। इसलिए अपने बालों की घरेलू देखभाल करें। उनकी सफाई सही तरीके से करें।
- मुलतानी मिट्टी में हलका गर्म पानी डाल कर पेस्ट बनाएं। फिर थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं। आधे घंटे

बाद बाल धो लें।

- 2 बड़े चम्मच दही, एक छोटा चम्मच शहद और एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर बालों में लगाएं। इससे बालों में नई जान आ जाएगी और वे मजबूत भी बनेंगे। इसके बाद नींबू के गुणों से युक्त शैंपू करें।
- बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर डाइट लें। प्रोटीन की कमी से बालों की रंगत फीकी पड़ने लगती है। वे बेजान और चमक रहित हो जाते हैं। इसलिए अपने आहार में मछली, अंडा, सोयाबीन, दालें और हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में शामिल करें।

